



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 8, 1969 (फाल्गुन 17, 1890)
No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 8, 1969 (PHALGUNA 17, 1890)

इस भाग में मिल एक संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खंड 4 PART I—SECTION 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं
Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Officers issued by the
Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 मार्च 1969

सं० 548, तिथि 18 फरवरी 1969—राष्ट्रपति, निम्न-
लिखित नियुक्ति करते हैं :—

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

श्री राम किशोर, स्थाई सी० एस० ओ० को सीनियर सी० एस० ओ० के पद पर स्थानापन्न रूप से 13 अगस्त 1968 से 12 फरवरी 1969 (अपराह्न) तक श्री जे० एस० फरनन्डेस के स्थान पर जो कि सेवा से निवृत्त हो गये हैं।

ई० ए० लोबो, सहायक मुख्य प्रशासन अधिकारी

सं० 549, तिथि 17 फरवरी 1969—राष्ट्रपति निम्न-
लिखित नियुक्तियां करते हैं :—

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

श्री ई० ए० लोबो, स्थाई सी० एस० ओ० को सीनियर सी० एस० ओ० के पद पर स्थानापन्न रूप से 6 अगस्त 1968 से 5 फरवरी 1969 (अपराह्न) तक श्री एम० डी० डालाकोटी के स्थान पर जो कि सेवा से निवृत्त हो गये हैं।

श्री आर० के० मित्तल, स्थाई अधीक्षक को सी० एस० ओ० के पद पर स्थानापन्न रूप से 6 अगस्त 1968 से 5 फरवरी 1969
M484GI/68

(अपराह्न) तक श्री ई० ए० लोबो के स्थान पर जिनकी पदोन्नति कर दी गई थी।

श्री पी० एल० वडेरा, स्थाई सहायक को अधीक्षक के पद पर स्थानापन्न रूप से 6 अगस्त 1968 से 5 फरवरी 1969 (अपराह्न) तक श्री आर० के० मित्तल के स्थान पर जिनकी पदोन्नति कर दी गई थी।

श्री एम० एल० भारद्वाज, स्थाई सहायक को अधीक्षक के पद पर, स्थानापन्न रूप से 19 अगस्त 1968 से 19 अक्टूबर 1968 तक श्री बी० पी० बहल अधीक्षक के स्थान पर जो कि अवकाश पर थे।

श्री के० जी० दीवान, स्थायी सहायक को अधीक्षक के पद पर स्थानापन्न रूप से 1 नवम्बर 1968 से 10 दिसम्बर 1968 तक श्री एस० एस० शर्मा अधीक्षक के स्थान पर, जो कि अवकाश पर थे।

श्री सी० पी० बस्ती, स्थायी सहायक को अधीक्षक के पद पर स्थानापन्न रूप से 18 नवम्बर 1968 से 20 दिसम्बर 1968 तक श्री नरेन्द्र नाथ अधीक्षक के स्थान पर जो कि अवकाश पर थे।

श्री एम० एल० भारद्वाज, स्थाई सहायक को अधीक्षक के पद पर, स्थानापन्न रूप से 4 नवम्बर 1968 से 4 जनवरी 1969 तक श्री पी० सी० शर्मा के स्थान पर जो कि अवकाश पर थे।

राम किशोर, सहायक मुख्य प्रशासन अधिकारी

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं० 550, दिनांक 21 फरवरी, 1969—राष्ट्रपति महोदय सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

रक्षा विज्ञान पेत्र

श्री ओ० एन० बमजै को वैज्ञानिक विश्लेषण समूह, अनुसंधान तथा विकास मुख्यालय में अस्थायी भाषा अधिकारी के पद पर, दो वर्षों की परखावधि पर, दिनांक 15-1-69 (पूर्वाह्न) से नियुक्त किया जाता है।

सं० 551, दिनांक 21 फरवरी, 1969—राष्ट्रपति महोदय सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

श्री इन्दरजीत कपूर, स्थानापन्न सहायक प्रशासनिक अधिकारी (नर्सिंगधार पर) उपकरण अनुसंधान तथा विकास संस्थापन, देहरादून को उसी संस्थापन में स्थानापन्न सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर, दिनांक 16 नवम्बर 1968 (पूर्वाह्न) से पदोन्नत किया जाता है।

श्री एन० रामकृष्ण शर्मा, अस्थायी कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला, हैदराबाद को इस संस्थापन में स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, श्रेणी-2, के पद पर, दिनांक 12 दिसम्बर 1968 (पूर्वाह्न) से पदोन्नत किया जाता है।

श्रीमती जानकी कठपालिया, अवर सचिव

भारतीय आर्मेन्स फैक्टरीज संघटन

सं० 554, दिनांक 14 फरवरी, 1969—द 2-3-1968 (पूर्वाह्न) से, आगामी आदेश तक, डा० (श्रीमति) टी० राधामणि को अस्थायी सहायक सर्जन ग्रेड 1 के पद पर कार्डाइट फैक्टरी, अरुवान्कडु में नियुक्त करते हैं।

सं० 555, दिनांक 19 फरवरी, 1969—राष्ट्रपति 9-12-1968 से आगामी आदेश तक डा० ए० के० सरकार को अस्थायी सहायक सर्जन ग्रेड 1 (पुरुष) के पद पर कार्डाइट फैक्टरी, अरुवान्कडु में नियुक्त करते हैं।

सं० 556, दिनांक 19 फरवरी, 1969—राष्ट्रपति, हारनेस एण्ड सैडलरी फैक्टरी, कानपुर के डा० योगेन्द्र सिंह, अस्थायी सहायक सर्जन ग्रेड 1 का त्याग-पत्र 4-12-1968 (अपराह्न) से स्वीकार करते हैं।

सं० 557, दिनांक 20 फरवरी, 1969—इस मंत्रालय की गजट अधिसूचना सं० 759 दिनांक 24-2-67 में श्री रजत कुमार सरनायक के नाम के सामने दी गई तारीख 14 जुलाई 1966 के स्थान पर 14 जुलाई 1966 (अपराह्न) पड़ी जाय।

ह० र० खट्टर, अवर सचिव

बीजलेखा संयुक्त ब्यूरो

सं० 567, तारीख 20 फरवरी, 1969—राष्ट्रपति, श्री के० एल० कपूर, अस्थायी अनुसंधान अफसर को 29 अक्टूबर, 1968 से 18 जनवरी, 1969 तक स्थानापन्न रूप से, मुख्य अनुसंधान अफसर के पद पर श्री के० एन० यवात्कर के स्थान पर, जोकि कम्प्यूटर प्रोग्रामर्स कोर्स पर गए हैं, नियुक्त करते हैं।

अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं० 568, तारीख 12 फरवरी, 1969—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

श्री ओम प्रकाश मैथल, स्थायी सहायक को स्थानापन्न रूप से, 29 जनवरी, 1969 से आगामी आदेश तक, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए। उनकी परखावधि दो वर्ष तक रहेगी।

रामकिशोर, सहायक मुख्य प्रशासन अधिकारी

सेना मुख्यालय

ए० जी० शाखा

सं० 570, तारीख 13 फरवरी 1969—राष्ट्रपति, श्री एच० सी० मित्तल, स्थायी सांख्यिकी सहायक/अस्थायी सांख्यिकी जांचकार को सांख्यिकी अफसर के पद पर स्थानापन्न रूप से 23-12-68 से 31-1-69 तक, श्री एस० पी० जोती, सांख्यिकी अफसर के स्थान पर जोकि अवकाश पर थे, नियुक्त करते हैं।

ई० ए० लोबो, सहायक मुख्य प्रशासन अधिकारी

सं० 589, तिथि 24 फरवरी 1969—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

बिजली और मशीन इंजीनियरिंग कोर

बिजली और मशीन इंजीनियरिंग कोर में अस्थाई वर्कशाप आफिसर क्लास I के रूप में आगामी आदेश तक—

श्री रनबीर कुमार सोनी—10 जनवरी 1969 (पूर्वाह्न) उपरोक्त आफिसर दो वर्ष की परख अवधि पर रहेंगे।

बिजली और मशीन इंजीनियरिंग कोर में अस्थाई वर्कशाप आफिसर क्लास II के रूप में आगामी आदेश तक—

श्री अरूप कान्ती डे —20 जनवरी 1969।

उपरोक्त आफिसर दो वर्ष की परख अवधि पर रहेंगे।

सं० 590, तिथि 24 फरवरी 1969—राष्ट्रपति ने निम्न लिखित नियुक्ति की :—

मिलिटरी इंजीनियर सेवाएं

ए० ई० ई० (बी/ग्रा) 2 वर्ष की अवधि पर

श्री जोगानन्दो गंगोली, —12 दिसम्बर, 1968 (प्राह्न)

अस्थाई ए० ई० ई० (ई/एम०) 2 वर्ष की अवधि पर

श्री गरीश कुमार सरीवासत्वा, —7 दिसम्बर, 1968 (प्राह्न)

अस्थाई ए० ई० ई० (बी/आर०) 2 वर्ष की अवधि पर:—

श्री श्री कान्त शर्मा, 24 दिसम्बर, 1968 (पूर्वाह्न) ।

स्थायी सुपरिन्टेण्डेंट (क्लैरिकल) और अस्थायी ए० ओ० I
स्थायी ए० ओ० II बनाया जाता है:—

श्री ए० बी० नायर (स्वर्गीय); श्री टी० एन० नटराजन;
श्री आर० रामानुजन (रटायर्ड); श्री सोहन लाल अग्रवाल—1
अप्रैल 1962 ।

श्री के० ई० एस० नायर—6 मई 1962 ।

श्री एस० एन० मेहता (रटायर्ड)—21 जून 1962 ।

श्री पी० आर० पूनमबालम (रटायर्ड)—1 जुलाई 1962 ।

श्री एल० एम० आष्टे—12 सितम्बर 1962 ।

श्री आर० सुन्दरा राजन—21 जुलाई 1963 ।

श्री जेसा राम ढींगरा; श्री पी० एन० कंडपाल; श्री जं० श्रीधर
आयंगर—; श्री एस० ब्रह्माइया (रटायर्ड);—1 अप्रैल 1964 ।

श्री प्रकाश स्वरूप (रटायर्ड); श्री एम० रामामीरधम
(रटायर्ड)—1 अप्रैल 1965 ।

श्री लोक नाथ कथूरिया—12 दिसम्बर, 1965 ।

श्री आर० नटराजन—17 दिसम्बर 1965 ।

श्री एस० एन० मुकरजी (रटायर्ड)—19 दिसम्बर 1965 ।

श्री रानेनद्र भूषण सेन—7 जनवरी, 1966 ।

श्री आर० एस० त्यागी—1 मई 1966 ।

श्री रामजी दास सैंगल—15 अगस्त 1966 ।

श्री डी० के० पारागांवकर—20 सितम्बर 1966 ।

श्री शंकर दास—28 नवम्बर 1966 ।

श्री सूरज भान —2 दिसम्बर 1966 ।

श्री के० आर० छाबरा—4 फरवरी 1967 ।

सं० 591, तारीख 20 फरवरी 1969—राष्ट्रपति ने निम्न-
लिखित अफसरों को अगले आदेश मिलने तक स्थानापन्न एस०
डब्ल्यू० के पद पर नियुक्त किया:—

सैनिक इंजीनियर सेवाएं

एम०ई०एस०/150009 श्री एस० बी० माटीकाली, स्थाना-
पन्न ए० एस० डब्ल्यू०, 23 नवम्बर 1968 (पूर्वाह्न) ।

एम० ई० एस०/127042 श्री एन० जी० नायक, स्थानापन्न
एस० ए० ग्रेड II तथा स्थानापन्न ए० एस० डब्ल्यू०, 30 अक्टूबर
1968 (पूर्वाह्न) ।

एम० ई० एस०/300018 श्री चौधरी महेश, स्थानापन्न
ए० एस० डब्ल्यू०—20 नवम्बर 1968 (पूर्वाह्न) ।

एम० ई० एस०/405009 श्री आर० डी० मिरजा, स्थाई
ए० ई० ई० (बी/आर०)—11 नवम्बर 1968 (पूर्वाह्न) ।

एम० ई० एस०/406187 श्री एस० के० राओ, अस्थाई
ए० ई० ई० (बी/आर०)—28 अक्टूबर 1968 (पूर्वाह्न) ।

एम०ई०एस०/108140 श्री के० राजगोपालन, अर्ध स्थाई
एस० ए० ग्रेड II तथा अस्थाई ए० ई० ई० (बी/आर०)—11
दिसम्बर 1968 (पूर्वाह्न) ।

अफसर दो वर्ष की परख अवधि पर होंगे ।

सं० 592, तारीख 20 फरवरी 1969—राष्ट्रपति ने निम्न-
लिखित को अगले आदेश मिलने तक स्थानापन्न ए० ओ० ग्रेड II
के पद पर नियुक्त किया:—

सैनिक इंजीनियर सेवाएं

एम० ई० एस०/15905 श्री चन्द्र शेखर पन्त, स्थाई स्टेनो
तथा अस्थाई सुपरिन्टेण्डेंट (क्लर्क)—7 नवम्बर 1968 (पूर्वाह्न) ।

एम०ई०एस०/16384 श्री सन्त कुमार गुप्ता, स्थाई यू०
डी० सी० तथा सुपरिन्टेण्डेंट (क्लर्क)—11 दिसम्बर 1968
(पूर्वाह्न) ।

एम०ई०एस०/भोला नाथ बारात, स्थाई यू० डी० सी० तथा
अस्थाई सुपरिन्टेण्डेंट (क्लर्क)—4 नवम्बर 1968 (पूर्वाह्न) ।

एम०ई०एस०/30650 श्री रामाकृष्णा गणेश जोगलेकर,
स्थाई यू० डी० सी० तथा अस्थाई सुपरिन्टेण्डेंट (क्लर्क)—9
दिसम्बर 1968 (पूर्वाह्न) ।

अफसर दो वर्ष की परख अवधि पर होंगे ।

सं० 593, तारीख 19 फरवरी 1969—वर्क्स, हाउसिंग और
रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय में डेपुटेशन पर सुपरिन्टेण्डिंग इंजीनियर
(आर्बिट्रेशन) के पद के लिये चुने जाने पर श्री बी० के० गुप्ता
स्थाई एस० ई० ने सैनिक इंजीनियर सेवा से सुपरिन्टेण्डिंग इंजिनियर
के कर्षों का भार दिनांक 15 सितम्बर 1966 (पूर्वाह्न) को छोड़ा ।
डेपुटेशन को अवधि के समाप्त होने पर उन्होंने सैनिक इंजीनियर
सेवा में सुपरिन्टेण्डिंग इंजीनियर के पद के कर्षों का भार दिनांक
12 फरवरी 1968 (पूर्वाह्न) को संभाला ।

एन० बी० स्वामीनाथन, अवसर सचिव

सं० 594, तारीख 7 फरवरी 1969—राष्ट्रपति निम्नलिखित
अफसर (जिन्हें थल सेना अनुदेश ए० आई० 6/एस०/57 के अधीन
4 नवम्बर 1965 से दुबारा नियुक्त किया गया था, देखें 4 जून
1966 के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं०
1430 तारीख 25 मई 1966), को सेवा में उनके नाम के सामने
दी गई अवधि के लिए और वृद्धि करते हैं:—

लैफ्टिनेंट कर्नल पट्टाबा सुब्रह्मण्यम सिथि (आई० सं०
2731), अटिलरी—4 नवम्बर 1967 से 3 नवम्बर 1969
तक ।

सं० 595, तारीख 3 फरवरी 1969—राष्ट्रपति निम्नलिखित
अफसर (जिन्हें थल सेना अनुदेश ए० आई० 6/एस०/57 के अधीन
17 जनवरी 1966 से दुबारा नियुक्त किया गया था, देखें 30
सितम्बर 1967 के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधि-
सूचना सं० 2643 तारीख 18 सितम्बर 1967) के सेवा में उनके
नाम के सामने दी गई अवधि के लिए और वृद्धि
करते हैं:—

लैफ्टिनेंट कर्नल असनमना शशिधरन टाम्पी आई० सी०
5476 ए० एस० सी०—17 जनवरी 1968 से 1 जनवरी 1969
तक ।

सं० 596, तारीख 3 फरवरी 1969—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर (जिन्हें थल सेना अनुदेश ए० आई० 6/एस०/57 के अधीन 25 अप्रैल 1966 से दुबारा नियुक्त किया गया था, देखें 22 जून 1968 के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 1495 तारीख 3 जून 1968), की सेवा में उनके नाम के सामने दी गई अवधि के लिए और वृद्धि करते हैं :—

कैप्टन नरकार सिंह धिल्ली आई० सी० 3811, ए० एस० सी० 25 अप्रैल 1968 से 16 दिसंबर 1968 तक ।

सं० 597, तारीख 4 फरवरी 1969—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 7802/एन० सी० सी०/पी० एल० जी०/2211/यू० एस०/डी०जी०एस०/III तारीख 22 जून 1963, प्राधिकार के आधीन निम्नलिखित सेवा निवृत्त अफसर को थल सेना अनुदेश ए० आई० 6/एस०/57 के अधीन 8 मार्च 1966 से दो साल तक के लिए उस के नाम के सामने लिखी ज्येष्ठता देते हुए लेफ्टिनेन्ट कर्नल के रैंक में पुनर्नियुक्त किया गया :—

दीना नाथ आई० सी० 10725, इन्फैंट्री—13 अगस्त 1940

भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 7802/एन० सी० सी०/पी० एल० जी०/2211/यू० एस०/डी०जी०एस०/III तारीख 22 जून 1963, प्राधिकार के आधीन निम्नलिखित सेवा निवृत्त अफसर को थल सेना अनुदेश ए० आई० 6/एस०/57 के अधीन 23 जून 1966 से तीन साल तक के लिए उस के नाम के सामने लिखी ज्येष्ठता देते हुए लेफ्टिनेन्ट कर्नल के रैंक में पुनर्नियुक्त किया गया :—

कुंवर भूपिन्दर सिंह आई० सी० 2461, इन्फैंट्री—14 मार्च 1943 ।

भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 7802/एन० सी० सी०/पी० एल० जी०/2211/यू० एस०/डी०जी०एस०/III तारीख 22 जून 1963 और सं० 7802/एन० सी० सी०/पी० एल० जी०/1462/सी०/डी० (जी० एस० III) तारीख 10 जून 1966 प्राधिकार के आधीन निम्नलिखित सेवा निवृत्त अफसर को थल सेना अनुदेश ए० आई० 6/एस०/57 के आधीन 17 अगस्त 1966 से तीन साल तक के लिए उस के नाम के सामने लिखी ज्येष्ठता देते हुए लेफ्टिनेन्ट कर्नल के रैंक में पुनर्नियुक्त किया गया :—

सोराब पेस्टोन्जी कुटकी (आई० सी० 2060), इन्फैंट्री—21 अप्रैल 1943 ।

भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 7802/एन० सी० सी०/पी० एल० जी०/2211/यू० एस०/डी०जी०एस०/III तारीख 22 जून 1963 और सं० 7802/एन० सी० सी०/पी० एल० जी०/1462/सी०/डी० (जी० एस० III) तारीख 10 जून 1966 प्राधिकार के आधीन निम्नलिखित सेवा निवृत्त अफसर को थल सेना

अनुदेश ए० आई० 6/एस०/57 के आधीन 30 सितम्बर 1966 से 3 साल तक के लिए उस के नाम के सामने लिखी ज्येष्ठता देते हुए लेफ्टिनेन्ट कर्नल के रैंक में पुनर्नियुक्त किया गया :—

देवाप्रसाद लाहिरी आई० सी० 3747, इन्फैंट्री—11 मई 1944 ।

भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 7802/एन० सी० सी०/पी० एल० जी०/2211/यू० एस०/डी०जी०एस०/III तारीख 22 जून 1963 और सं० 7802/एन० सी० सी०/पी० एल० जी०/1462/सी०/डी० (जी० एस० III) तारीख 10 जून 1966 प्राधिकार के आधीन निम्नलिखित सेवा निवृत्त अफसर को थल सेना अनुदेश ए० आई० 6/एस०/57 के आधीन 16 नवम्बर 1966 से तीन साल तक के लिए उस के नाम के सामने लिखी ज्येष्ठता देते हुए लेफ्टिनेन्ट कर्नल के रैंक में पुनर्नियुक्त किया गया :—

सिगानालर मैकटेशियर नागाराजन आई० सी० 2560, इन्फैंट्री—7 अक्टूबर 1941 ।

भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 7802/एन० सी० सी०/पी० एल० जी०/2211/यू० एस०/डी० जी० एस०/III तारीख 22 जून 1963 और सं० 7802/एन० सी० सी०/पी० एल० जी०/1462/सी०/डी० (जी० एस० III) तारीख 10 जून 1966 प्राधिकार के आधीन निम्नलिखित सेवा निवृत्त अफसर को थल सेना अनुदेश ए० आई० 6/एस०/57 के आधीन 24 दिसम्बर 1966 से 3 वर्ष तक के लिए उस के नाम के सामने लिखी ज्येष्ठता देते हुए लेफ्टिनेन्ट कर्नल के रैंक में पुनर्नियुक्त किया गया :—

पर्वत सिंह आई० सी० 9432, इन्फैंट्री—24 दिसम्बर 1939 ।

भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 7802/एन० सी० सी०/पी० एल० जी०/2211/यू० एस०/डी०जी०एस०/III तारीख 22 जून 1963 और सं० 7802/एन० सी० सी०/पी० एल० जी०/1462/सी०/डी० (जी० एस० III) तारीख 10 जून 1966 प्राधिकार के आधीन निम्नलिखित सेवा निवृत्त अफसर को थल सेना अनुदेश ए० आई० 6/एस०/57 के आधीन 4 जनवरी 1967 से तीन साल तक के लिए उस के नाम के सामने लिखी ज्येष्ठता देते हुए लेफ्टिनेन्ट कर्नल के रैंक में पुनर्नियुक्त किया गया :—

कुंवर दुर्जनसाल आई० सी० 5542, इन्फैंट्री—4 जून 1941 ।

भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 7802/एन० सी० सी०/पी० एल० जी०/2211/यू० एस०/डी०जी०एस०/III तारीख 22 जून 1963 और सं० 7802/एन० सी० सी०/पी० एल० जी०/1462/सी०/डी० (जी० एस० III) तारीख 10 जून 1966 प्राधिकार के आधीन निम्नलिखित सेवा निवृत्त अफसर को थल सेना अनुदेश ए० आई० 6/एस०/57 के आधीन 1 फरवरी 1967 से 14 अक्टूबर 1969 तक के लिए उस के नाम के सामने लिखी ज्येष्ठता देते हुए लेफ्टिनेन्ट कर्नल के रैंक में पुनर्नियुक्त किया गया :—

अमृत सिंह बक्शी आई० सी० 1240 ए० एस० सी०—1 सितम्बर 1941 ।

थलसेना अनुदेश 6/एस०/57 के अधीन निम्नलिखित नियमित सेवा-निवृत्त अफसर को 8 अप्रैल 1965 से तीन साल तक के लिये

उसके नाम के सामने लिखी ज्येष्ठता देते हुए मेजर रैंक में पुनर्नियुक्त किया गया :—

संसार सिंह, आई० सी० 10739, इन्फैन्ट्री—28 जून 1944।

थलसेना अनुदेश 6/एस०/57 के अधीन निम्नलिखित नियमित सेवा-निवृत्त अफसर को 10 नवम्बर 1965 से दो साल तक के लिये उसके नाम के सामने लिखी ज्येष्ठता देते हुए मेजर रैंक में पुनर्नियुक्त किया गया :—

दरबारा सिंह, आई० सी० 2090, इन्फैन्ट्री—26 जून 1943।

थलसेना अनुदेश 6/एस०/57 के अधीन निम्नलिखित नियमित सेवा-निवृत्त अफसर को 16 मई 1966 से दो साल तक के लिये उसके नाम के सामने लिखी ज्येष्ठता देते हुए मेजर रैंक में पुनर्नियुक्त किया गया :—

परदुमन सिंह, आई० सी० 2236, आरमर्ड कोर—3 जनवरी 1948, परन्तु केवल वेतन के लिये 3 जनवरी 1946।

थलसेना अनुदेश 6/एस०/57 के अधीन निम्नलिखित नियमित सेवा-निवृत्त अफसर को 19 मई 1966 से दो साल तक के लिये उसके नाम के सामने लिखी ज्येष्ठता देते हुए मेजर रैंक में पुनर्नियुक्त किया गया :—

बलबोर सिंह, आई० सी० 7741, आरमर्ड कोर—8 अक्टूबर 1943।

थलसेना अनुदेश 6/एस०/57 के अधीन निम्नलिखित नियमित सेवा-निवृत्त अफसर को 4 जुलाई 1966 से तीन वर्ष तक के लिये उसके नाम के सामने लिखी ज्येष्ठता देते हुए मेजर रैंक में पुनर्नियुक्त किया गया :—

सरदारा सिंह बेन्स, आई० सी० 9460, इन्फैन्ट्री—18 जुलाई 1943।

थलसेना अनुदेश 6/एस०/57 के अधीन निम्नलिखित नियमित सेवा-निवृत्त अफसर को 5 जुलाई 1966 से तीन साल तक के लिये उसके नाम के सामने लिखी ज्येष्ठता देते हुए मेजर रैंक में पुनर्नियुक्त किया गया :—

तेज पाल सिंह, आई० सी० 5265, आरमर्ड कोर—29 जनवरी 1943।

थलसेना अनुदेश 6/एस०/57 के अधीन निम्नलिखित नियमित सेवा-निवृत्त अफसर को 11 अगस्त 1966 से 10 जून 1969 तक के लिये उसके नाम के सामने लिखी ज्येष्ठता देते हुए मेजर रैंक में पुनर्नियुक्त किया गया :—

शंकर राव काले, आई० सी० 9384, ए० एस० सी०—26 सितम्बर 1943।

थलसेना अनुदेश 6/एस०/57 के अधीन निम्नलिखित नियमित सेवा-निवृत्त अफसर को 21 अगस्त 1966 से 23 मई 1969 तक के लिये उसके नाम के सामने लिखी ज्येष्ठता देते हुए मेजर रैंक में पुनर्नियुक्त किया गया :—

दत्तात्रेय विगनु पण्डित, आई० सी० 9848, ए० एस० सी०—23 अक्टूबर 1943।

थलसेना अनुदेश 6/एस०/57 के अधीन निम्नलिखित नियमित सेवा-निवृत्त अफसर को 29 अगस्त 1966 से तीन वर्ष तक के लिये उसके नाम के सामने लिखी ज्येष्ठता देते हुए मेजर रैंक में पुनर्नियुक्त किया गया :—

मेजर भान पाल सिंह, आई० सी० 9042, इन्फैन्ट्री—2 जनवरी 1949, परन्तु केवल वेतन के लिये 2 जनवरी 1947।

थलसेना अनुदेश 6/एस०/57 के अधीन निम्नलिखित नियमित सेवा-निवृत्त अफसर को 30 अगस्त 1966 से तीन साल तक के लिये उसके नाम के सामने लिखी ज्येष्ठता देते हुए मेजर रैंक में पुनर्नियुक्त किया गया :—

भीष्म ओहरी, आई० सी० 1290, आरमर्ड कोर—16 दिसम्बर 1943।

थलसेना अनुदेश 6/एस०/57 के अधीन निम्नलिखित नियमित सेवा-निवृत्त अफसर को 19 सितम्बर 1966 से तीन वर्ष तक के लिये उसके नाम के सामने लिखी ज्येष्ठता देते हुए मेजर रैंक में पुनर्नियुक्त किया गया :—

जय नारायण सिंह यादव, आई० सी० 9012, इन्फैन्ट्री—6 अगस्त 1948 परन्तु केवल वेतन के लिये—6 अगस्त 1946।

थलसेना अनुदेश 6/एस०/57 के अधीन निम्नलिखित नियमित सेवा-निवृत्त अफसर को 4 अक्टूबर 1966 से तीन वर्ष तक के लिये उसके नाम के सामने लिखी ज्येष्ठता देते हुए मेजर रैंक में पुनर्नियुक्त किया गया :—

बरेन्द्र सिंह, आई० सी० 2805, इन्फैन्ट्री—18 अप्रैल 1943।

थलसेना अनुदेश 6/एस०/57 के अधीन निम्नलिखित नियमित सेवा-निवृत्त अफसर को 14 दिसम्बर 1966 से तीन साल तक के लिये उसके नाम के सामने लिखी ज्येष्ठता देते हुए मेजर रैंक में पुनर्नियुक्त किया गया :—

बलवन्त सिंह रिखी, आई० सी० 8908, ए० ओ० सी०—26 सितम्बर 1943।

थलसेना अनुदेश 6/एस०/57 के अधीन निम्नलिखित नियमित सेवा-निवृत्त अफसर को 27 दिसम्बर 1966 से 12 दिसम्बर 1969 तक के लिये उसके नाम के सामने लिखी ज्येष्ठता देते हुए मेजर रैंक में पुनर्नियुक्त किया गया :—

जदेव, आई० सी० 8709, ए० ओ० सी०—24 फरवरी 1947।

थलसेना अनुदेश 6/एस०/57 के अधीन निम्नलिखित नियमित सेवा-निवृत्त अफसर को 31 दिसम्बर 1966 से 3 वर्ष तक के लिये उसके नाम के सामने लिखी ज्येष्ठता देते हुए मेजर रैंक में पुनर्नियुक्त किया गया :—

शंकर विष्णुनाथ द्रविड़, आई० सी० 8769, आर्टिलरी—1 मई 1944।

थलसेना अनुदेश 6/एस०/57 के अधीन निम्नलिखित नियमित सेवानिवृत्त अफसर को 9 जनवरी 1967 से 31 दिसम्बर 1969 तक के लिये उसके नाम के सामने लिखी ज्येष्ठता देते हुए मेजर रैंक में पुनर्नियुक्त किया गया :—

गुलाब सिंह शर्मा, आई० सी० 4393 ए० ओ० सी०—11 अगस्त 1947।

थलसेना अनुदेश 6/एस०/57 के अधीन निम्नलिखित नियमित सेवानिवृत्त अफसर को 16 जनवरी 1967 से 3 वर्ष तक के लिए उसके नाम के सामने लिखी ज्येष्ठता देते हुए मेजर के रैंक में पुनर्नियुक्त किया गया :—

जोध सिंह आई० सी०-2491 आर्टिलरी—18 अक्टूबर 1945 परन्तु केवल वेतन के लिए 18 अक्टूबर 1943।

थलसेना अनुदेश 6/एस०/57 के अधीन निम्नलिखित नियमित सेवानिवृत्त अफसर को 17 जनवरी 1967 से 14 जनवरी 1970 तक के लिए उसके नाम के सामने लिखी ज्येष्ठता देते हुए मेजर रैंक में पुनर्नियुक्त किया गया :—

मिलटन डोमनिक गोन्साल्वस आई० सी०-2517 ए० एस० सी०—13 अक्टूबर 1942।

थलसेना अनुदेश 6/एस०/57 के अधीन निम्नलिखित नियमित सेवानिवृत्त अफसर को 23 जनवरी 1967 से तीन वर्ष तक के लिए उसके नाम के सामने लिखी ज्येष्ठता देते हुए मेजर रैंक में पुनर्नियुक्त किया गया :—

रत्नजोध सिंह आई० सी०-9506 इन्फैन्ट्री—1 जुलाई 1947।

थलसेना अनुदेश 6/एस०/57 के अधीन निम्नलिखित नियमित सेवानिवृत्त अफसर को 2 फरवरी 1967 से 4 जनवरी 1970 तक के लिए उसके नाम के सामने लिखी ज्येष्ठता देते हुए मेजर रैंक में पुनर्नियुक्त किया गया :—

सूरज मल आई० सी०-11292 ए० एम० सी०—13 अप्रैल 1951।

थलसेना अनुदेश 6/एस०/57 के अधीन निम्नलिखित नियमित सेवानिवृत्त अफसर को 12 अप्रैल 1967 से 3 वर्ष तक के लिए उसके नाम के सामने लिखी ज्येष्ठता देते हुए मेजर के रैंक में पुनर्नियुक्त किया गया :—

सिवरामा संकरन आई० सी०-8357 सिगनल्स—3 सितम्बर 1946।

थलसेना अनुदेश 6/एस०/57 के अधीन निम्नलिखित नियमित सेवानिवृत्त अफसर को 12 अक्टूबर 1967 से 3 वर्ष तक के लिए उसके नाम के सामने लिखी ज्येष्ठता देते हुए मेजर के रैंक में पुनर्नियुक्त किया गया :—

भगवान सिंह गुसाई (आई० सी० 8781) आर्टिलरी—2 अप्रैल 1949 परन्तु केवल वेतन के लिए 2 अप्रैल 1947।

थलसेना अनुदेश 6/एस०/57 के अधीन निम्नलिखित नियमित सेवानिवृत्त अफसर को 19 जुलाई 1966 से 18 जुलाई 1969

तक के लिए उसके नाम के सामने लिखी ज्येष्ठता देते हुए कैप्टन के रैंक में पुनर्नियुक्त किया गया :—

हजारा सिंह आई० सी०-8396 सिगनल्स—16 नवम्बर 1944।

थलसेना अनुदेश 6/एस०/57 के अधीन निम्नलिखित नियमित सेवानिवृत्त अफसर को 24 सितम्बर 1966 से 3 वर्ष तक के लिए उसके नाम के सामने लिखी ज्येष्ठता देते हुए कैप्टन रैंक में पुनर्नियुक्त किया गया :—

मुठुकृष्ण नायडू आई० सी०-2172 इंजीनियर्स—17 दिसम्बर 1947 परन्तु केवल वेतन के लिए 17 दिसम्बर 1945।

थलसेना अनुदेश 6/एस०/57 के अधीन निम्नलिखित नियमित सेवानिवृत्त अफसर को 16 नवम्बर 1966 से 13 नवम्बर 1969 तक के लिए उसके नाम के सामने लिखी ज्येष्ठता देते हुए कैप्टन रैंक में पुनर्नियुक्त किया गया :—

केसर सिंह आई० सी०-3022 ए० ओ० सी०—15 जनवरी 1943।

थलसेना अनुदेश 6/एस०/57 के अधीन निम्नलिखित नियमित सेवानिवृत्त अफसर को 6 जनवरी 1967 से 4 जनवरी 1970 तक के लिए उसके नाम के सामने लिखी ज्येष्ठता देते हुए कैप्टन रैंक में पुनर्नियुक्त किया गया :—

रघूनाथ कृष्ण दिसाई आई० सी०-10900 ए० ओ० सी०—2 अगस्त 1951।

थलसेना अनुदेश 6/एस०/57 के अधीन निम्नलिखित नियमित सेवानिवृत्त अफसर को 17 अक्टूबर 1967 से 3 वर्ष तक के लिए उसके नाम के सामने लिखी ज्येष्ठता देते हुए कैप्टन के रैंक में पुनर्नियुक्त किया गया :—

किशोर चन्द कपूर आई० सी०-4717 आर्टिलरी—2 अगस्त 1944।

एफ० एम० वीरजी, अवसर सचिव

थल सेना विभाग

सं० 601 तारीख 21 फरवरी 1969—राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से ले० कर्नल के मूल रैंक में (सुलक्ष्मण द्वारा)

एच० एस० छाछी आई० सी०-8350 आर्टिलरी; डी० स्वरूप आई० सी०-4241 ई० एम० ई०; और एम० एस० ओवराय आई० सी०-4450 ए० ओ० सी०—2 मई 1966।

डी० आर० आथर, अवसर सचिव

सं० 602 तारीख 18 फरवरी 1969—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल के मूल रैंक में (सलेक्शन द्वारा)

एम० शेरगिल (आई० सी० 3887), ए० ओ० सी० 31 जुलाई 1967।

(परन्तु वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 सितम्बर 1965 से वी जाएगी)।

एफ० एम० बीरजी, अवर सचिव

सं० 603, तारीख 21 फरवरी 1969—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से ले० कर्नल के मूल रैंक में (समयमान)

बी० एल० पनटक आई० सी०-9360 आर्टिलरी—13 जून 1967।

डी० आर० आय्यर, अवर सचिव

सं० 604, तारीख 18 फरवरी 1968—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान से मेजर

पी० के० कोल आई० सी०-6176 आर्टिलरी—28 दिसम्बर 1968।

एस० डी० काले आई० सी०-7667 आर्टिलरी; एस० रंगस्वामी आई० सी०-7601 इंजीनियर्स; आर० कूपर आई० सी०-7631; एच० सी० जोशी आई० सी०-7637 इन्फैंट्री; एन० के० भण्डारी आई० सी०-7623; हर्षपती आई० सी०-7659; आर० जैन आई० सी०-7682 इन्फैंट्री; राजेश बहादुर आई० सी०-7671; एच० एस० शर्मा आई० सी०-7703 ई० एम० ई०; वी० जे० आनन्द आई० सी०-7714 आर्टिलरी; एन० के० त्रिवेदी आई० सी०-7639; एच० टी० मलकानी आई० सी०-7702; के० सी० मलहोत्रा आई० सी०-7712; एस० के० गुलाटी आई० सी०-7736 इंजीनियर्स; जे० सम्पथ आई० सी०-7678; पी० के० घोष आई० सी०-7707 आर्टिलरी; एन० जी० पटवर्धन आई० सी०-7694 इंजीनियर्स; शम्भूजी लाल आई० सी०-7708 इन्फैंट्री; एस० के० गौर आई० सी०-7620 ई० एम० ई०-एन० पी० एम० बाल आई० सी०-7616; एच० एस० बाबा आई० सी०-7697 आर्मर्ड कोर; के० सी० तनेजा आई० सी०-7612 इंजीनियर्स; एम० ए० झाकी आई० सी०-7613; एन० के० ओबरोई आई० सी०-

7625; कुलवन्त सिंह आई० सी०-7665 इन्फैंट्री एच० एम० अहलूवालिया आई० सी०-7688; एस० सी० एन० आरस आई० सी०-7699 आर्टिलरी; जी० वी० वी० एल० सास्त्री आई० सी०-7733 इन्फैंट्री; जे० के० देव आई० सी०-7651; आर० के० कश्यप आई० सी०-7738; ए० ओ० सी०; खुशिनंदर सिंह आई० सी०-7668 आर्टिलरी; टी० जान आई० सी०-7666; राजेश्वर सरन आई० सी०-7685; के० सी० गर्गा आई० सी०-7717; एम० एस० वर्मा आई० सी०-7734 सिगनल; आर० के० मेहता आई० सी०-7644; के० एल० रत्नन आई० सी०-7661; संकराज सिंह आई० सी०-7675; टी० एस० अहलाबात आई० सी०-7696; एम० एम० शर्मा आई० सी०-7728; इन्फैंट्री जी० के० चावला आई० सी० 7657; पी० एस० नय्यर आई० सी०-7673; एन० के० कन्धारी आई० सी०-7691; एस० सी० सक्सेना आई० सी०-7710; एन० एस० भटनागर आई० सी०-7711; बलदेव सिंह आई० सी०-7643; ए० एस० सन्धू आई० सी०-7672; रघुबीर सिंह आई० सी०-7674; वी० के० सिंह आई० सी०-7709; ए० डी० चौबाल आई० सी०-7720 इन्फैंट्री; नरिन्दर नाथ आई० सी०-7683; एस० के० ग्रोवर आई० सी०-7692; वी० पी० मलहोत्रा आई० सी०-7705; बी० वी० आनन्द आई० सी०-7715; ए० एस० एल० गुप्ता आई० सी०-7729 आर्टिलरी; पी० एन० जयवन्त आई० सी०-7608; वी० एस० मलहोत्रा आई० सी०-7610; आर० एन० जोशी आई० सी०-7619; सुरजीत सिंह आई० सी०-7628; जी० आर० वर्मा आई० सी०-7642 आर्टिलरी; एस० एस० जोशी आई० सी०-7669; देई चन्द आई० सी०-7700; एस० के० नायर आई० सी०-7706; एस० एस० तलवार आई० सी०-7723 और एन० के० अगरवाल आई० सी०-7730 ए० ओ० सी०-11 दिसम्बर 1968।

ए० पी० डी० मान्डी आई० सी०-7649 आर्टिलरी; पी० पी० चावला आई० सी०-10128; के० वी० जाली आई० सी०-10138; एस० के० राय आई० सी०-10169 और एस० आर० मेन आई० सी०-10172 ई० एम० ई०-15 दिसम्बर 1968।

स्थायी कमीशन (विशेष सूची)

कप्तान से मेजर

के० एस० वेदी एस० एल०-23-1 नवम्बर 1968।

जागी राम एस० एल०-102; पी० आर० शर्मा एस० एल०-104; एम० वी० एन० के० मेनन एस० एल०-105; सरदार सिंह एस० एल०-111 और डी० डी० खनोरिया एस० एल०-112-1 जनवरी 1969।

लेफ्टिनेंट से कैप्टन

बी० वी० बत्रा आई० सी०-13531; एम० एम० ए० करिअप्पा आई० सी०-13532; एस० के० करिअप्पा आई०

सी०-13548; आर० सेठी आई० सी०-13583; एच० एस० अरोड़ा आई० सी०-13589; एस० सी० कुटिला आर० आई० सी०-13621; जे० सी० भाटिया आई० सी०-13626; आर० एम० कपूर आई० सी०-13627; रविन्द्र कुमार आई० सी०-13635; एल० पदमनाभान आई० सी०-13640; राजिन्द्र सिंह आई० सी०-13656; जी० एस० पुनिया आई० सी०-13666; हरबंस लाल आई० सी०-13674; ए० के० शुक्ला आई० सी०-13681; एन० एम० सामिक आई० सी०-13683; बी० के० चौधरी आई० सी०-13690; एच० एम० गिल आई० सी०-13700; एल० एम० चड्ढा आई० सी०-13735; आई० एन० खन्ना आई० सी०-13738; और गुरदयाल सिंह आई० सी०-13743 आटिलरी; आर० एस० रन्धावा आई० सी०-13528; जे० वास्करन आई० सी०-13568; आर० एस० सोदी आई० सी०-13603; एस० गुलाटी आई० सी०-13617; कुलदीप सिंह आई० सी०-13622; एफ० बिजली आई० सी०-13660, बी० एम० डोगरा आई० सी०-13778; आर० मलहोत्रा आई० सी०-13881; बलदेव सिंह आई० सी०-13882; ए० एस० बल आई० सी०-13916; बी० के० सेवल आई० सी०-13947; डी० आर० नन्दा आई० सी०-13966; हरिन्दर वीर सिंह आई० सी०-14028; और ओ० एम० भुल्लर आई० सी०-14073 आरमंड कोर; एस० एन० खड्ग आई० सी०-13766; के० विस्वानाथन आई० सी०-13767; डी० पी० एस० नूरपुरी आई० सी०-13771; एस० एस० नय्यर आई० सी०-13780; आर० एस० राव आई० सी०-13785; बी० आर० पाटिल आई० सी०-13788; नन्द किशोर आई० सी०-13790; के० सी० सतपथी आई० सी०-13809; जी० सी० भट्टाचार्य आई० सी०-13811; एच० एस० धिन्सा आई० सी०-13816; एन० टी० मधुसूदनन आई० सी०-13819; एफ० जी० डेसा आई० सी०-13828; जे० सी० बेहेरा आई० सी०-13902; एस० एम० चांद आई० सी०-13908; बी० जी० दुग्गल आई० सी०-13920; जी० एम० जसराडो आई० सी०-13921; आर० एस० दत्ता आई० सी०-13925; एच० एस० छोकर आई० सी०-13958; बलकार सिंह आई० सी०-13965 और एस० एल० कृपाप्पानी आई० सी०-13973 आटिलरी—11 दिसम्बर 1968।

नियमित कमीशन

2/लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट

एल० आर० शन्ख्यान आई० सी०-17429; पी० भारती आई० सी०-17437; आर० यू० मिसरा आई० सी०-17497; एस० बामुदेवा आई० सी०-17497 और आर० जी० थोमस आई० सी०-17520, आटिलरी; चंदगी राम आई० सी०-17202; उजागर सिंह आई० सी०-17208; एम० एस० मनहास आई० सी०-17222; रतन दीप सिंह आई० सी०-17226; एन० के० शर्मा आई० सी०-17244; नेतम प्रभाकर आई० सी०-17258; एम० डी० सुन्दर आई० सी०-17277; जी० बी० त्रिपाठी आई० सी०-17285 और डी० बी० के० राओ आई० सी०-17286, सिगनल; एस० एस० कनवारगीमथ आई० सी०-17197; ए० एस०

तकहर आई० सी०-17198; महा सिंह आई० सी०-17205; एन० एम० तेवाड़ी आई० सी०-17218; रतन जीत सिंह आई० सी०-17220; निर्मल तेज सिंह आई० सी०-17224; डी० के० बैनर्जी आई० सी०-17225; एफ० बी० खत्री आई० सी०-17227; एच० बी० वर्मा आई० सी०-17228, इन्फैन्ट्री; बी० के० भुचर आई० सी०-17230; ए० तिवारी आई० सी०-17234; जी० एस० उप्पल आई० सी०-17237; आर० खारे आई० सी०-17240; दिगविजय पाथ सिंह आई० सी०-17242; के० सी० कटोच आई० सी०-17247; बी० एस० हिल्लन आई० सी०-17248; आर० एस० सेठी आई० सी०-17253 और ए० के० सूद आई० सी०-17261, इन्फैन्ट्री; के० के० कौशल आई० सी०-17221; ए० के० महगल आई० सी०-17223; एम० स्वामीनाथन आई० सी०-17263; बी० के० हांडा आई० सी०-17318; जी० एम० नायर आई० सी०-17323; पी० के० कपूर आई० सी०-17337; राकेश पुरी आई० सी०-17347; सुरेन्द्र सिंह आई० सी०-17357 और ए० के० नागपाल आई० सी०-17377, इन्जीनियर्स; एस० कौशिक आई० सी०-17200; कृशन परताप सिंह आई० सी०-17207; ए० के० काक आई० सी०-17211; रंजन दास आई० सी०-17238; सी० एस० हरीका आई० सी०-17254; ललित बदवार आई० सी०-17336; बलजीत सिंह आई० सी०-17354; बेनकट-रामन शंकर आई० सी०-17403; के० जी० वाजे आई० सी०-17412 और के० बी० कपूर आई० सी०-17427, आरमंड कोर—25 दिसम्बर 1968।

आपासी कमीशन

2/लेफ्टी से लेफ्टी

एस० सी० परमार ई० सी०-51089, ई० एम० ई०; एम० एम० अर्जुना राजा ई० सी०-51494; डी० पी० चेल्लिया ई० सी०-51495; बी० के० वक्शी ई० सी०-51502; पी० एन० दास ई० सी०-51537; ई० डी० नम्बियार ई० सी०-51488; सुवेश कुमार ई० सी०-51489; हरी कृशन ई० सी०-51521 और एस० बी० सालुन्के ई० सी०-51513, सिगनल—30 जून 1965।

एन० एस० धीर ई० सी०-51567; वाई० पी० शर्मा ई० सी०-51787; आर० एस० बाजवा ई० सी०-52358; ई० एम० ई०; रछपाल सिंह ई० सी०-52021 और एच० एम० चाधा ई० सी०-52769 इन्जीनियर्स—27 सितम्बर 1965।

ए० एस० कृष्णा राजेन्द्रन ई० सी०-55364; आर० शर्मा ई० सी०-55376, सिगनल; एस० थिरुथुवा नाथन ई० सी०-55249; बी० पी० नायर ई० सी०-55266; श्रीनिवासन ई० सी०-55320; सी० मिवा संकरन ई० सी०-55379; के० सुन्दर राज ई० सी०-55396; सी० एम० सहगल ई० सी०-55401; पी० एम० खेरा ई० सी०-55422; एम० ए० ऐपी ई० सी०-55425; आर० एम० आर० किदियूर ई० सी०-55491 और एस० एस० हिरेमठ ई० सी०-55610 सिगनल—2 फरवरी 1966।

डी० एम० छिकारा ई० सी०—51547; बी० के० भवन ई० सी०—51826; देव राज ई० सी०—51889; एन० के० मेनन ई० सी०—51957; सतवन्त सिंह ई० सी०—51630; मेधा सिंह ई० सी०—51750; जे० एस० यादवा ई० सी०—51806; साधू सिंह ई० सी०—51834; बी० के० भुतकार ई० सी०—51848; एस० सी० प्रधान ई० सी०—52003 और एस० एस० यादव ई० सी०—52058; सिगनरज—27 सितम्बर 1965।

गुरुदमन सिंह ई० सी०—51603, सिगनरज—1 अगस्त 1966।

एस० एस० शेखावत ई० सी०—58223, इन्फेन्ट्री—2 अगस्त 1966।

ग्रन्थालीन कमीशन

2/लिफ्ट० से लेफ्टी०

के० बी० बालाकृष्णन एम० एस०—18606, आर. पार्थी-मार्थी एस० एस०—18728; ए० के० शालो एम० एस०—18749; आर० आर० बला एस० एस०—18755; डी० के० थोटे एस० एस०—18760; राम गोपाल एस० एस०—18768; स्वीन्द्र सिंह एम० एस०—18823; आर० चन्द्रा मेखारा एम० एस०—18860; एच० एम० गुप्ता एस० एस०—18891 और एम० के० भल्ला एम० एस०—18893, इन्जीनियर्स—24 अप्रैल 1968।

एफ० एम० वीरजी, अवर सचिव

सं० 605, तारीख 21 फरवरी 1969—राष्ट्रपति निम्न-लिखित पदोन्नति करते हैं—

नियमित सेना

इन्फेन्ट्री

डोगरा रेजिमेन्ट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार करतार सिंह जे० सी०—35494—18 मई 1967।

नायब सूबेदार वेद कुमार जे० सी०—25149—24 सितम्बर 1968।

नायब सूबेदार महन्त सिंह जे० सी०—27434—17 अक्टूबर 1968।

इन्फेन्ट्री

4 जी० आर०

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क प्रेम सिंह पठानिया जे० सी०—16510—27 नवम्बर 1968।

इन्फेन्ट्री

मराठा लाइट इन्फेन्ट्री

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार जगु आगलावे जे० सी०—16343—21 मई 1968।

नायब सूबेदार माहती कदम जे० सी०—16344—30 जुलाई 1968।

नायब सूबेदार शाहु दलवी जे० सी०—16345—2 सितम्बर 1968।

इन्फेन्ट्री

राजपूताना राइफल्स

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार करन सिंह जे० सी०—19795—18 अक्टूबर 1968।

इन्फेन्ट्री

सिख लाइट इन्फेन्ट्री

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार लखा सिंह जे० सी०—24853—1 जुलाई 1967।

नायब सूबेदार चरन सिंह जे० सी०—25315; नायब सूबेदार कर्म सिंह जे० सी०—28981 और नायब सूबेदार दीवान सिंह जे० सी०—27510—1 जनवरी 1968।

नायब सूबेदार रत्तन सिंह जे० सी०—24054—29 अक्टूबर 1968।

नायब सूबेदार तेजा सिंह जे० सी०—24052—7 नवम्बर 1968।

इन्फेन्ट्री

पंजाब रेजिमेन्ट

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क अमर सिंह जे० सी०—18562—10 अक्टूबर 1968।

फोर आफ इन्जीनियर्स

बम्बई इन्जीनियर ग्रुप

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क शंकर पवार जे० सी०—15530—5 दिसम्बर 1967।

इन्फेन्ट्री

गारव ब्रिगेड

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार बन्त सिंह जे० सी०—20731—1 अप्रैल 1967।

गुरुदत्ता चौधरी, अवर सचिव

सं० 606, तारीख
लिखित पदोन्नति करते हैं :—

—राष्ट्रपति निम्न-

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

आसाम रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रोरबुधा लुणाई सं० 4331337 अब जे० सी०—
51172—11 अक्टूबर 1968।

इन्फैन्ट्री

बिहार रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जौन टोपो सं० 4232833 अब जे० सी०—
51256 और हवलदार ओहन बारला सं० 4232706 अब
जे० सी०—51257—28 सितम्बर 1968।

इन्फैन्ट्री

झोपरा रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सत्या प्रकाश चन्देल सं० 3943521 अब जे०
सी०—51243—29 अगस्त 1968।

बी० एच० एम० परशोत्तम सिंह सं० 3930775 अब जे०
सी०—51244—12 नवम्बर 1968।*

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 21 अक्टूबर 1968 से दी जाएगी)।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क तिलक राज शर्मा सं० 3940161 अब जे०
सी०—51269—13 जनवरी 1969।

इन्फैन्ट्री

जाट रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राम किशन सं० 3140445 अब जे० सी०—
51233 और हवलदार सुखवीर सिंह सं० 3133491 अब जे०
सी०—51234—19 सितम्बर 1968।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क बीरबल सिंह सं० 3132710 अब जे० सी०—
51228 और हवलदार क्लर्क शेर सिंह सं० 3132733 अब जे०
सी०—51229—17 दिसम्बर 1968।

हवलदार क्लर्क हरी सिंह सं० 3137542 अब जे० सी०—
51262—25 दिसम्बर 1968।

इन्फैन्ट्री

कुमाऊँ रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

गी० एच० एम० खजान सिंह सं० 4139552 अब जे०
सी०—51235—3 सितम्बर 1968।

बी० क्यू० एम० एच० बलवीर सिंह सं० 4141390 अब
जे० सी०—51236—2 अक्टूबर 1968।

सी० क्यू० एम० एच० श्री चन्द सं० 9035579 अब जे०
सी०—51237—12 अक्टूबर 1968।

हवलदार मखन लाल सं० 4140650 अब जे० सी०—
51190—14 अक्टूबर 1968।

हवलदार जगदेव सिंह सं० 4131082 अब जे० सी०—
51191—7 नवम्बर 1968।

सी० एच० एम० प्रेम सिंह सं० 4135838 अब जे० सी०—
51211; सी० क्यू० एम० एच० बिष्णु सिंह सं० 4131705
अब जे० सी०—51212; हवलदार राम सिंह सं० 4137070
अब जे० सी०—51213; बी० एच० एम० गोविन्द सिंह सं०
4139981 अब जे० सी०—51214; सी० एच० एम० प्रताप चन्द
सं० 4140308 अब जे० सी०—51215; सी० क्यू० एम०
एच० रतन सिंह सं० 4142100 अब जे० सी०—51216 और
सी० क्यू० एम० एच० उर्वा दत्त सं० 4139166 अब जे० सी०—
51217—31 अगस्त 1968।

सी० क्यू० एम० एच० किशन सिंह सं० 4141020 अब
जे० सी०—51218—24 नवम्बर 1968।

इन्फैन्ट्री

मद्रास रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क बी० एन० मुहम्मद अली सं० 2538501
अब जे० सी०—51171—1 दिसम्बर 1968।

इन्फैन्ट्री

राजपूत रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जय सिंह सं० 2947568 अब जे० सी०—
51251—11 अगस्त 1968।

हवलदार राजबीर सिंह सं० 2939347 अब जे० सी०—
51252; हवलदार चौहाना बक्स सिंह सं० 2944478 अब जे०
सी०—51253 और हवलदार सुगुर सिंह सं० 2944341 अब जे०
सी०—51254—28 सितम्बर 1968।

हवलदार भागीरथ सं० 2941200 अब जे० सी०—
हवलदार राजपाल सिंह सं० 2942722 अब जे० सी०—
हवलदार ओम प्रकाश सं० 2942649 अब जे० सी०—9
दिसम्बर 1968।

इन्फैन्ट्री

पंजाब रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क मेला राम सं० 2436566 अब जे० सी०—
51219—4 नवम्बर 1968।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 10 अक्टूबर 1968 से दी जाएगी)।

हवलदार कर्क काबल सिंह सं० 2435403 अब जे०
सी०—51220—19 दिसम्बर 1968।

विशेष सूची

सिख रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार (बर्म शिक्षक) के रैंक में

नायक सवरन सिंह सं० 3345220, अब जे० सी० 51164
24 अक्तूबर, 1968।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार कर्क करनैल सिंह, सं० 3338858, अब जे० सी०
51230, 2 दिसम्बर, 1968।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 21 अक्तूबर, 1968 से दी जाएगी)

हवलदार कर्क जोगिन्दर सिंह सं० 3331759, अब जे०
सी० 51231, 1 नवम्बर, 1968।

हवलदार कर्क जोगिन्दर सिंह, सं० 3339631, अब जे०
सी० 51232, 16 नवम्बर, 1968।

इन्फैन्ट्री

जम्मू और काश्मीर राइफल्स

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार कर्क राम शरण, सं० 13710380, अब जे० सी०
51181, 7 दिसम्बर, 1968।

इन्फैन्ट्री

3 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार वल बहादुर गुर्ग, सं० 5231935 अब जे० सी०
51195, 15 अक्तूबर, 1968।

हवलदार भावी चन्द थापा, सं० 5231976 अब जे० सी०
51196, 19 अक्तूबर, 1968।

हवलदार बालीसर थापा सं० 5232377, अब जे० सी०
51197, 15 नवम्बर, 1968।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 19 अक्तूबर, 1968 से दी जाएगी।)

हवलदार मूल बहादुर राना, सं० 5232674, अब जे० सी०
51198, 26 अक्तूबर, 1968।%

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 21 अक्तूबर 1968 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार कर्क मदन मोहन गैरोला, सं० 5232367 अब
जे० सी० 51258, 4 जनवरी, 1969।

इन्फैन्ट्री

5 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

सी० क्यू० एम० एच० धनबीर गुर्ग सं० 5429111,
अब जे० सी० 51165, 16 जून, 1968।

हवलदार बाल सिंह राना, सं० 5429114, अब जे० सी०
51166, 1 जुलाई, 1968।

हवलदार रतनसिंह थापा, सं० 5429755, अब जे० सी०
51177, 29 सितम्बर 1968।

हवलदार भुवान सिंह थापा, सं० 5605053, अब जे० सी०
51178, 17 अक्तूबर, 1968।

हवलदार भीम बहादुर राना, सं० 5429855, अब जे० सी०
51179, 20 अक्तूबर, 1968।

हवलदार छबी लाल थापा सं० 5429407, अब जे० सी०
51180, 21 अक्तूबर, 1968।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार कर्क धरमसिंह खड़का, सं० 5429782, अब जे०
सी० 51268, 10 दिसम्बर, 1968।

इन्फैन्ट्री

8 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार हरकाबहादुर गुर्ग, सं० 5735849, अब जे०
सी० 51167, 4 सितम्बर, 1968।

हवलदार लीलबहादुर थापा सं० 5735943, अब जे० सी०
51168 17 अक्तूबर, 1968।

हवलदार ईश्वर सिंह गुर्ग सं० 5734536, अब जे० सी०
51199, 13 अक्तूबर, 1968।

हवलदार कुलपरसाव गुर्ग, सं० 5734738, अब जे० सी०
51200, 15 अक्तूबर, 1968।

इन्फैन्ट्री

9 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार डम बहादुर खत्री, सं० 5833030 अब जे० सी०
51193, 16 अक्तूबर, 1968।

हवलदार जीत बहादुर साही, सं० 5830520, अब जे० सी०
51194, 20 अक्तूबर, 1968।

हवलदार रन धोज मल, सं० 5833455, अब जे० सी०
51187, 18 अक्तूबर, 1968।

हवलदार शलक सिंग सिंग, सं० 5829939, अब जे० सी०
51188, 26 अक्तूबर, 1968।

हवलदार शेर बहादुर मल, सं० 5830535, अब जे० सी०
51255, 2 नवम्बर, 1968।

हवलदार नर बहादुर बोहरा, सं० 5829497 अब जे० सी० 51238, 23 नवम्बर, 1968 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 अक्तूबर, 1968 से दी जायेगी) ।

हवलदार प्रेम बहादुर मल, सं० 5830544, अब जे० सी० 51239; हवलदार शेर बहादुर अधिकारी, सं० 5830130, अब जे० सी० 51240, 17 अक्तूबर, 1968 ।

हवलदार तिल बहादुर खत्री, सं० 5830184, अब जे० सी० 51241, 20 अक्तूबर, 1968 ।

हवलदार दल बहादुर खत्री, सं० 5830424, अब जे० सी० 51242, 4 नवम्बर, 1968 ।

हवलदार कुल बहादुर साही, सं० 5833296, अब जे० सी० 51210, 11 दिसम्बर, 1968 ।

इन्फैन्ट्री

11 जी० आर०

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार प्रसाद मान राई, सं० 9402653, अब जे० सी० 51157, 24 अगस्त, 1968 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले ज्येष्ठता 6 अगस्त, 1968 से दी जायेगी)

हवलदार हर्कमान राई सं० 5433656, अब जे० सी० 51158, 12 नवम्बर, 1968 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 अगस्त, 1968 से दी जायेगी)

हवलदार दिलबहादुर मगर, सं० 9402583, अब जे० सी० 51173, हवलदार आशचन्द्र राई सं० 9402455 अब जे० सी० 51174, हवलदार हरीप्रसाद लिम्बू, सं० 9403087, अब जे० सी० 51175, 1 दिसम्बर, 1968 ।

इन्फैन्ट्री

मराठा लाइट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क बालक राम कोली सं० 9200911 अब जे० सी० 51192, 21 अक्तूबर, 1968 ।

इन्फैन्ट्री

सिख लाइट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार नञ्छत्तर सिंह सं० 4429301, अब जे० सी० 51201, 7 अगस्त, 1968 ।

हवलदार महिम्न सिंह सं० 4436013 अब जे० सी० 51202 17 सितम्बर, 1968 ।*

*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता, 24 अगस्त, 1968 से दी जायेगी ।

कोर आफ इंजीनियर्स

बम्बई इंजीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार वसंत जाधव सं० 1509499, अब जे० सी० 51182, 15 मई, 1968 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 अप्रैल, 1968 से दी जायेगी) ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क एम० जी० जनार्दनन पिल्ले, सं० 1511128, अब जे० सी० 51183, 30 अक्तूबर, 1968 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 जुलाई, 1968 से दी जायेगी) ।

हवलदार क्लर्क मुखरयार सिंह सं० 1510076, अब जे० सी० 51184, 19 जुलाई 1968 ।

हवलदार क्लर्क तरसेम सिंह सं० 1511968, अब जे० सी० 51185, 10 अगस्त, 1968 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 जुलाई, 1968 से दी जायेगी) ।

नायब सूबेदार (बेडमास्टर) के रैंक में

हवलदार रघबीर सिंह, सं० 1505995, अब जे० सी० 51186, 3 अक्तूबर, 1968 ।

विशेष सूची

कोर आफ इंजीनियर्स

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

सैपर संतोख सिंह, सं० 1439686, अब जे० सी० 51259, 5 अप्रैल, 1968 ।

लांसनायक बिसेखर प्रसाद, सं० 1422684, अब जे० सी० 51260, 11 जून, 1968 ।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार महिपाल सिंह, 1409269, अब जे० सी० 51203, 6 दिसम्बर, 1968 ।*

हवलदार मोति लाल, 1415499, अब जे० सी० 51204 हवलदार सूरत सिंह, 1518256, अब जे० सी० 51205, 7 दिसम्बर, 1968 ।*

हवलदार गुरदर्शन सिंह, 1413650, अब जे० सी०, 51206 13 दिसम्बर, 1968 ।*

हवलदार दली चन्द, 1416635 अब जे० सी० 51207, 16 दिसम्बर, 1968 ।*

हवलदार शिव दत्त सिंह, 1409067, अब जे० सी० 51208, 20 दिसम्बर, 1968 ।*

हवलदार सरवन सिंह 1413953, अब जे० सी० 51209
28 दिसम्बर, 1968 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 30 नवम्बर, 1968 से दी जायेगी) ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क महिन्द्र सिंह, 1421529, अब जे० सी०
51265, 5 दिसम्बर, 1968 ।*

हवलदार क्लर्क माया राम, 1419873, अब जे० सी०
51266, 10 दिसम्बर, 1968 ।*

हवलदार क्लर्क गिरीश चन्द्र, 1421345, अब जे० सी०
51267, 17 दिसम्बर, 1968 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 13 नवम्बर, 1968 से दी जाएगी) ।

सैनिक शिक्षा कोर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार एम० एल० करन, सं० 6857716, अब जे० सी०
51159, 23 मई, 1968 ।

हवलदार हरिहर जेना, सं० 6861205, अब जे० सी०
51160, 23 अगस्त, 1968 ।

हवलदार धरम पाल, सं० 6861545, अब जे० सी० 51161
और हवलदार होशियार सिंह हरचन्द, सं० 6861619, अब जे०
सी० 51162, 1 सितम्बर, 1968 ।

हवलदार रघुनाथ प्रसाद शर्मा, सं० 6630337, अब जे० सी०
51163, 21 सितम्बर, 1968 ।

हवलदार बलि राज सिंह, सं० 6857544, अब जे० सी०
51261, 9 जुलाई, 1968 ।*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 9 मई, 1968 से दी जायेगी) ।

हवलदार चमन लाल, सं० 6861588, अब जे० सी० 51176
1 सितम्बर, 1968 ।

हवलदार बुध राम यादव, सं० 6630311, अब जे० सी०
51222, 1 सितम्बर, 1968 ।

हवलदार वैद्य नाथ तिवारी, सं० 6861682, अब जे० सी०
51223, 7 सितम्बर, 1968 ।

हवलदार रोशन लाल, सं० 6630335, अब जे० सी०
51224, 19 सितम्बर, 1968 ।

हवलदार अवधेश कुमार शरण, सं० 6861934, अब जे० सी०
51225, 30 सितम्बर, 1968 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क यशपाल सिंह परमार, सं० 5029888,
अब जे० सी० 51226, और हवलदार क्लर्क रघुबीर सिंह, सं०
3139164, अब जे० सी० 51227, 1 अक्टूबर, 1968 ।

हवलदार क्लर्क कंवल नारायण शर्मा, सं० 5029968, अब
जे० सी० 51249, 1 अक्टूबर, 1968 ।

हवलदार क्लर्क रघुनन्दन पान्डे, सं० 4138850, अब जे०
सी० 51250, 25 अक्टूबर, 1968 ।

(रक्षा तथा सुरक्षा कोर)

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क एम० पी० रामेटया, सं० 6993484, अब
जे० सी० 51248, 6 दिसम्बर, 1968 ।

इन्फैन्ट्री

प्रिनेडियर्स

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क एच० के० अहलूवालिया, सं० 13405578,
अब जे० सी० 51169, 1 अक्टूबर, 1968 ।

हवलदार क्लर्क रोडू राम, सं० 2633732, अब जे० सी०
51170, 23 अक्टूबर, 1968 ।

इन्फैन्ट्री

प्रिनेडियर्स

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क ब्रह्म दास, सं० 2634191, अब जे० सी०
51263, 7 दिसम्बर, 1968 ।

हवलदार क्लर्क होशियार सिंह, सं० 2633556, अब जे०
सी० 51264, 9 दिसम्बर, 1968 ।

एफ० एस० वीरजी, अबर सचिव

सं० 607, तारीख 20 फरवरी 1969—राष्ट्रपति, निम्न-
लिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

सैनिक आर्डनेंस कोर

सूबेदार मेजर एम्पूनीशन टेक्नीशियन के रैंक में

सूबेदार सुदर्शन सिंह 41017 जे० सी०—23 मई
1968 ।

सूबेदार वी० एम० मथ्यू 42072 जे० सी०, सूबेदार के०
नारायणन 32162 जे० सी०—1 जुलाई 1968 ।

सूबेदार एस० राम मोहन राव 32470 जे० सी०—18
जुलाई 1968 ।

सूबेदार मेजर क्लर्क सामान्य ड्यूटी के रैंक में

सूबेदार पृथ्वी नाथ 53209 जे० सी०—31 मई 1968 ।

सूबेदार एम० वी० राजागोपालन 54572 जे० सी०—4
जून 1968 ।

सूबेदार चन्दगी राम वशिष्ठ 54571 जे० सी०—1 जुलाई
1968 ।

सूबेदार बृज लाल 55203 जे० सी०—2 जुलाई 1968 ।

सूबेदार मेजर क्लर्क भण्डार के रैंक में

सूबेदार क्लर्क भण्डार (प्रोवीजन) किशन सिंह 45916
जे० सी०—25 मई 1968 ।

सूबेदार मेजर स्टोरकीपर टैक्निकल के रैंक में

सूबेदार स्टोरकीपर टैक्निकल (एम० टी०) जे० पी०
चेलादुराई 35659 जे० सी०—14 मई 1968 ।

सूबेदार स्टोरकीपर टैक्निकल (एम० टी०) जी० वेंकटरमन
35691 जे० सी०—17 मई 1968 ।

सूबेदार स्टोर कीपर टैक्निकल (एम० टी०) लीला धर
35718 जे० सी०—23 मई 1968 ।

सूबेदार स्टोर कीपर टैक्निकल (एम० टी०) हरबर्ट सालोमन
लार्वेस नाथ 32271 जे० सी०, सूबेदार स्टोर कीपर टैक्निकल
(जी० एस० एण्ड सी०) मनीन्द्र चन्द्र चक्रवर्ती 32281 जे०
सी०—30 मई 1968 ।

सूबेदार स्टोर कीपर टैक्निकल (जी० एस० एण्ड सी०)
हरमंदर सिंह 32294 जे० सी०—22 जून 1968 ।

सूबेदार स्टोर कीपर टैक्निकल (वेपन) नानक चन्द 32367
जे० सी०—27 जून 1968 ।

सूबेदार स्टोर कीपर टैक्निकल (एम० टी०) जानकी नाथ
नाथ 32410 जे० सी०, सूबेदार स्टोर कीपर टैक्निकल (वेपन)
हसा नन्द 32411 जे० सी०—1 जुलाई 1968 ।

सूबेदार स्टोर कीपर टैक्निकल (एम० टी०) हरबिलास
गोपाल 32460 जे० सी०—3 जुलाई 1968 ।

सूबेदार मेजर ड्राइवर के रैंक में

सूबेदार ड्राइवर (एम० टी०) विहारी लाल जे० सी०
6539—1 जुलाई 1968 ।

सूबेदार मेजर स्टोर हेण्ड सामान्य ड्यूटी के रैंक में

सूबेदार मोहम्मद अब्दुल वहाब 40496 जे० सी० सूबेदार
एस० सिवराम पिल्ले 45694 जे० सी०—7 जून 1968 ।

नायब सूबेदार दल सिंह जे० सी० 10993—1 जनवरी
1966 ।

सूबेदार क्लर्क सामान्य ड्यूटी के रैंक में

नायब सूबेदार बिशन सिंह साहनी जे० सी० 8673, नायब
सूबेदार प्रिया नाथ राहा जे० सी० 9063, नायब सूबेदार
जोति सरूप प्राप्तर जे० सी० 10257, नायब सूबेदार एम० थामस
जकरिया जे० सी० 8994, नायब सूबेदार हरनाम दास जे० सी०
8566—1 जनवरी 1966 ।

सूबेदार स्टोर कीपर टैक्निकल के रैंक में

नायब सूबेदार स्टोर कीपर टैक्निकल (जी० एस० एण्ड
सी०) समित्तर्सिंह 61673 जे० सी०, नायब सूबेदार स्टोर कीपर
टैक्निकल (एम० टी०) सीतला प्रसाद पांडे जे० सी० 13452,
नायब सूबेदार स्टोर कीपर टैक्निकल (एम० टी०) होशू
राम तनेजा 61715 जे० सी०—1 जनवरी 1966 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार स्टोर हेण्ड सामान्य ड्यूटी बापू जादव
जे० सी० 11247 और नायब सूबेदार स्टोर हेण्ड टैक्निकल
फरजंद अली जे० सी० 14589—1 जनवरी 1966 ।

बिजली और मशीनी इंजीनियर कोर

सूबेदार मेजर आर्मान्ड आर्ट और आरटी जन (इलिजि-
बिल केटेगरीज) के रैंक में

सूबेदार बिशन दास 51531 जे० सी०—1 दिसम्बर 1966 ।

सूबेदार आर्मान्ड आर्ट और आरटी जन (इलिजिबिल
केटेगरीज) के रैंक में

नायब सूबेदार के० बरकी जे० सी० 10458—1 जनवरी
1967 ।

नायब सूबेदार इन्दर प्रकाश जे० सी० 16248—1 अप्रैल
1967 ।

नायब सूबेदार मुखमूल सिंह जे० सी० 20347—1 मई
1967 ।

सूबेदार आरटी जन (नाम-इलिजिबिल केटेगरीज)
के रैंक में

नायब सूबेदार बरकत मसीह जे० सी० 12765—1
फरवरी 1967 ।

सूबेदार क्लर्क (सामान्य ड्यूटी) के रैंक में

नायब सूबेदार गंगा गोविन्द मुखर्जी जे० सी० 8538—1
मई 1967 ।

सूबेदार (भंडार) के रैंक में

नायब सूबेदार के कन्तान नायर जे० सी०-13388 1 मई 1967,
नायब सूबेदार एम० अक्षय नायर जे० सी० 13389, नायब सूबेदार
सरदारी लाल जे० सी० 15003—1 मई 1967 ।

सूबेदार मेजर क्लर्क (सामान्य ड्यूटी) के रैंक में

सूबेदार राजदेव सिंह 54128 जे० सी०—1 अगस्त
1967 ।

सूबेदार आर्मान्ड आर्ट और आरटी जन (इलिजिबिल
केटेगरीज) के रैंक में

नायब सूबेदार आर० कोठान्डा रामन जे० सी० 14788—
1 अप्रैल 1967 ।

नायब सूबेदार आत्मा राम जे० सी० 20353—1 मई
1967 ।

नायब सूबेदार जय चन्द जे० सी० 16219—1 जून
1967 ।

नायब सूबेदार मेहताव सिंह जे० सी० 11923, नायब सूबेदार
नरलोक सिंह जे० सी० 16220, नायब सूबेदार नरिन्दर सिंह
जे० सी० 20486—1 जुलाई 1967 ।

नायब सूबेदार बलवन्त राय जे० सी० 10030, नायब सूबेदार
के० बी० दूटी जे० सी० 20554, नायब सूबेदार जानन सिंह
जे० सी० 20515—1 अगस्त 1967 ।

नायब सूबेदार खजान सिंह जे० सी० 9529, नायब सूबेदार जीता सिंह जे० सी० 17762, नायब सूबेदार रुकवेल सिंह जे० सी० 20513—1 सितम्बर 1967 ।

सूबेदार आरटीजन (नान-इसिजिविल केटेगरीज) के रैंक में

नायब सूबेदार सामुहल जोसफ जे० सी० 10465—1 मार्च 1967 ।

नायब सूबेदार जितेवर जे० सी० 11967—1 जून 1967 ।

नायब सूबेदार माथर सिंह जे० सी० 13399—1 जुलाई 1967 ।

नायब सूबेदार करमजीत सिंह जे० सी० 11129—1 सितम्बर 1967 ।

सूबेदार बनर्क (सामान्य ड्यूटी) के रैंक में

नायब सूबेदार कन्हैया लाल जे० सी० 8539—1 जून 1967 ।

नायब सूबेदार प्रह्लाद सिंह जे० सी० 7821, नायब सूबेदार शिव राम जे० सी० 8009—1 जुलाई 1967 ।

सूबेदार बलक (सामान्य ड्यूटी) के रैंक में

नायब सूबेदार श्रीनिवास राव जे० सी० 4411, नायब सूबेदार साधू सिंह जे० सी० 17773—1 जुलाई 1967 ।

सूबेदार भंडार के रैंक में

नायब सूबेदार ए० विश्वनाथ जे० सी० 9866—1 मई 1967 ।

नायब सूबेदार राम कनवार जे० सी० 13823—1 जुलाई 1967 ।

नायब सूबेदार अय सिंह जे० सी० 9867—1 अगस्त 1967 ।

नायब सूबेदार के० भास्कर पिल्ले जे० सी० 11931—1 सितम्बर 1967 ।

सूबेदार ड्राइविंग विंग के रैंक में

नायब सूबेदार गोपाल जे० सी० 23735—1 मार्च 1967 ।

नायब सूबेदार कालू राम जे० सी० 20543—1 मई 1967 ।

नायब सूबेदार राम सरूप जे० सी० 23741—1 जून 1967 ।

नायब सूबेदार सनथोई जे० सी० 20398, नायब सूबेदार एम० कर्नाशा जे० सी० 20939—1 जुलाई 1967 ।

नायब सूबेदार कन्हासामी जे० सी० 23736, नायब सूबेदार एन० बेलायुधान नायर जे० सी० 23737, नायब सूबेदार सी० सी० जार्ज जे० सी० 23738—1 सितम्बर 1967 ।

कम्पनी हवलदार मेजर से नायब सूबेदार आमबिन्द अर्द्ध के रैंक में

एलम चन्द शर्मा सं० 7029104 अब जे० सी० 50887—1 अगस्त 1967 ।

राजपाल सिंह सं० 7023392 अब जे० सी० 50888—22 फरवरी 1968* ।

एम० कृष्ण वेरियर सं० 7011397 अब जे० सी० 50889, के० पी० सुकुमारन नायर सं० 7020270 अब जे० सी० 50890—1 फरवरी 1968 ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 1968 से दी जायेगी) ।

हवलदार से नायब सूबेदार आरटीजन (इसिजिविल केटेगरीज) के रैंक में

ओम प्रकाश सं० 7002389 अब जे० सी० 50891—8 दिसम्बर 1967† ।

वलवीर सिंह छिब्यर सं० 7003483 अब जे० सी० 50892—1 दिसम्बर 1967 ।

†(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 1967 से दी जायेगी) ।

हवलदार से नायब सूबेदार आरमोरर के रैंक में

बलदेव सिंह सं० 7001536 अब जे० सी० 50893—1 नवम्बर 1967 ।

खुशी राम सं० 7001781 अब जे० सी० 50894—28 दिसम्बर 1967‡ ।

जंग सिंह सं० 7010228 अब जे० सी० 50895—1 जनवरी 1968 ।

सेसाधर घोष सं० 7010280 अब जे० सी० 50896—14 फरवरी 1968** ।

सरजीत सिंह सन्धू सं० 7009972 अब जे० सी० 50897—29 जनवरी 1968** ।

‡(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर 1967 से दी जायेगी) ।

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1968 से दी जायेगी) ।

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राइविंग विंग के रैंक में

जसवन्तराव सुसीलकुमार सं० 7017381 अब जे० सी० 50898, 1 नवम्बर 1967, राम किशन सं० 7013475 अब जे० सी० 50899, 1 नवम्बर 1968@ ।

देव लाल सिंह सं० 7013678 अब जे० सी० 50900—1 नवम्बर 1967 ।

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 1967 से दी जायेगी) ।

विनय कृष्णा डे सं० 7017873 अब जे० सी० 50901, 1 दिसम्बर 1967 ।

कन्हैया लाल सं० 7018249 अब जे० सी० 50902—1 दिसम्बर 1967 ।

नेव सिंह सं० 7019343 अब जे० सी० 50903—11 दिसम्बर 1967* ।

राम गंकर पांडे सं० 7020303 अब जे० सी० 50904—25 जनवरी 1968† ।

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर 1967 से दी जायेगी) ।

†(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1968 से दी जायेगी) ।

उपरोक्त पदोन्नतियों से सम्बन्धित तारीख 17 मई 1968 के भारत के राजपत्र अधिसूचना सं० 1310 को विलोपित (रद्द) किया जाता है ।

टी जेकब, अवर सचिव

सं० 608, तारीख 13 फरवरी 1969—राष्ट्रपति, निम्न-लिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

सैनिक सेवा कोर (मोटर परिवहन)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार पोथुला करुपानन्दम जे० सी० 39889—11 दिसम्बर 1968 ।

नायब सूबेदार रैपन सूसै जे० सी० 39890—16 दिसम्बर 1968 ।

नायब सूबेदार लाल्लो राम जे० सी० 39891, नायब सूबेदार अगस्तीन जे० सी० 39892—17 दिसम्बर 1968 ।

नायब सूबेदार मोस्ता मल रामाचन्द्रन कुरुप जे० सी० 39893—23 दिसम्बर 1968 ।

नायब सूबेदार ढोंडापति वेंकटा रामन जे० सी० 39894—30 दिसम्बर 1968 ।

सी० वी० नारायणन, अवर सचिव

(नौ सेना विभाग)

सं० 609, तारीख 19 फरवरी 1969—राष्ट्रपति, निम्न-लिखित नियुक्ति करते हैं :—

श्री भगवान सिंह को एक वर्ष की अवधि के लिये या संघ लोक सेवा आयोग का नामित प्राप्ति होने तक, जो भी पहले हो, अस्थायी प्रिन्सिपल सिविल हाइड्रोग्राफिक अफसर के पद पर—16 दिसम्बर 1968 (पूर्वाह्न) ।

श्री वत्सालय किशनराव क्षितगोपकर को आगे आवेष्ट मिलने तक अस्थायी नेवल स्टोर अफसर के पद पर—18 जनवरी 1969 (पूर्वाह्न) ।

वह दो वर्ष की अवधि के लिये परखावधि पर रहेंगे ।

श्री मायावरन सुंदर्श सुब्रामण्यम, स्थायी ड्राफ्ट्समन श्रेणी II/अस्थायी चीफ ड्राफ्ट्समैन को स्थानापन्न टैक्निकल असिस्टेंट (डिजाइन/कंस्ट्रक्शन)—5 दिसम्बर 1968 (अपराह्न) ।

श्री मनोहर वेन्कटेश उपाध्ये, स्थायी ड्राफ्ट्समैन श्रेणी III/अस्थायी ड्राफ्ट्समैन श्रेणी I को स्थानापन्न टैक्निकल असिस्टेंट (डिजाइन/कंस्ट्रक्शन)—5 दिसम्बर 1968 (अपराह्न) ।

वे दो वर्ष की अवधि तक परखावधि पर रहेंगे ।

श्री एफ० डी० सुजा, स्थायी यू० डी० सी०, अस्थायी अधीक्षक को श्री ए० ए० भावे के स्थान पर, जिन्हें छुट्टी प्रदान की गई है, स्थानापन्न सिविलियन राजपत्रित अफसर के पद पर—7 अक्टूबर 1968 से 23 नवम्बर 1968 ।

एन० वी० स्वामीनाथन, अवर सचिव

सं० 610, तारीख 24 फरवरी 1969—राष्ट्रपति, निम्न-लिखित नियुक्ति करते हैं :—

भारतीय नौ सेना

अस्थायी काडर

स्पेशल इयूटी लिस्ट

कार्यकारी सब लेफ्टि० (एस० डी०) (आर० ई० जी०)

सेटी प्रभजीत सिंह एम० ए० ए० नौ सं० 61778 को 30 सितम्बर 1967 से एन० आई० 32/67 के अन्तर्गत ।

अजीत सिंह, अवर सचिव

सं० 611, तारीख 19 फरवरी 1969—भारत के राजपत्र तारीख 30 दिसम्बर 1967 में प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना सं० 3508, तारीख 22 दिसम्बर 1967 के संदर्भ में, डा० (श्रीमती) लीला मेरीचा को 26 सितम्बर 1968 तक की अगली अवधि तक अस्थायी मेडिकल अफसर (सहायक सर्जन श्रेणी 1) के पद पर कार्य करती रहें ।

एन० वी० स्वामीनाथन, अवर सचिव

सं० 612, तारीख 22 फरवरी 1969—राष्ट्रपति, निम्न-लिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

भारतीय नौसेना

(स्थायी कमोशन)

एक्जीक्यूटिव ब्रान्च

लेफ्टि० कमांडर को कमांडर (समय-मान) के पद पर

आर० एस० सोखी को 19 नवम्बर 1968 से विनियम 151 की धारा 5(क), नौ सेना विनियमावली भाग III सांविधिक के अन्तर्गत ।

**(लेफ्टि० कमांडर कार्य कमांडर डब्ल्यू एच० ए०) को
कमांडर (समयमान) के पद पर**

जे० एस० डिंडसा कां० 29 नवम्बर 1968 से विनियम 151 की धारा 5(क), नौसेना विनियमावली भाग III सांविधिक के अन्तर्गत ।

कार्यकारी सब-लेफ्टि० को सब-लेफ्टि० के पद पर

एन० एल० जवा को 17 सितम्बर 1967 से 1 जनवरी 1968 की बरीयता सहित (केवल पदोन्नति के लिये) एन० आई० 69/61 के अन्तर्गत ।

एक्सीक्यूटिव ब्रान्च

मिडशिपमेन को कार्यकारी सब-लेफ्टि० के पद पर

अमरजीत सिंह बजवा, हरिहरन बालाकृष्णन्, बासूर नरिन्द्र भट्ट, संग्राम सिंह बायस, सैडिक सुशील चार्ल्स, सर्वोत्तम हान्डा, अरुण कपूर, श्याम कौशल, विजय मनराल, पुष्पलाराजा राव, बिस्वजीत राय, अरुण सगल, देविन्द्र सेठी, अनिलकुमार शर्मा, अरुण कुमार सिंह, जवाहर कुलदीप सिंह, विजय कुमार थापर, अजित तिवारी, गजेन्द्र वर्मा—1 जनवरी 1969 से एन० आई० 33/57 के अन्तर्गत ।

सप्लाय एण्ड सेक्रेटेरियट ब्रान्च

कार्यकारी सब-लेफ्टि० को सब-लेफ्टि० के पद पर

एन० बक्शी, 1 जुलाई 1967 से 1 जुलाई 1968 की बरीयता सहित (केवल पदोन्नति के लिये) एन० आई० 47/57 के अन्तर्गत ।

अजीत सिंह, अवर सचिव

(एयर ब्रांच)

सं० 613, तारीख 19 फरवरी 1969—राष्ट्रपति, निम्न-लिखित अफसर को उनके नाम के सामने दिखाई गई तारीख से अपना थोड़े समय का अनंतिम सेवा कमीशन छोड़ देने की अनुमति देते हैं और उसी तारीख से उन्हें थोड़े समय का सेवा कमीशन (परखाधीन) प्रदान करते हैं :—

इंडियन एयर फोर्स

टेक्निकल/सिगनल ब्रांच

सी० बी० नाहर (8455)—3 अक्टूबर 1966 ।

सं० 614, तारीख 19 फरवरी 1969—राष्ट्रपति, निम्न-लिखित अफसरों की सेवाएं रक्षा मंत्रालय के पक्ष सं० एयर है० क्वा०/21978/18/पी० ओ० 2/5170/डी० (ए-III), तारीख 18 जून 1968 के अन्तर्गत एयर इंडिया को सौंपते हैं :—

इंडियन एयर फोर्स

जी० डी० (नेवीगेटर) ब्रांच

विंग कमांडर एम० जी० मिधा (1982), विंग कमांडर पी० एस० वर्मा (3470)—1 मई 1968 ।

सं० 615, तारीख 19 फरवरी 1969—राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के पक्ष सं० एयर है० क्वा०/21978/18/पी० ओ० 2/10636/डी० (ए-III), तारीख 14 नवम्बर 1968 के अन्तर्गत निम्नलिखित अफसरों की सेवाएं एयर इंडिया को सौंपते हैं :—

इंडियन एयर फोर्स

जी० डी० (नेवीगेटर) ब्रांच

विंग कमांडर बी० नायर (3476), स्क्वा० लीडर एस० जे० टी० डी० सूजा (4865), स्क्वा० लीडर जी० एस० नाथ (5092), स्क्वा० लीडर बी० के० ज्वाला (5215)—5 अक्टूबर 1968 ।

सं० 616, तारीख 19 फरवरी 1969—राष्ट्रपति, निम्न-लिखित अफसरों की सेवाएं रक्षा मंत्रालय के पक्ष सं० एयर है० क्वा०/21978/18/पी० ओ० 2/8123/डी० (ए-III), तारीख 17 अगस्त 1968 के अन्तर्गत एयर इंडिया को सौंपते हैं :—

इंडियन एयर फोर्स

जी० डी० (पी०) ब्रांच

स्क्वाड्रन लीडर एम० डी० येन्नीमडी (4589)—28 जुलाई 1968 ।

स्क्वाड्रन लीडर पी० मेहता (4619), स्क्वाड्रन लीडर के० एम० बालासुब्रामणियम (4747), स्क्वाड्रन लीडर टी० सी० मार्टिन्स, वि० मे० (4610)—25 जुलाई 1968 ।

सं० 617, तारीख 24 फरवरी 1969—राष्ट्रपति, निम्न-लिखित फ्लाईंग अफसर को फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट के मूल रैंक में पदोन्नत करते हैं :—

इंडियन एयर फोर्स

मेट० ब्रांच

ए० एन० गड्डियोक (6161) और एन० नटराजन (6183)—27 मई 1967 ।

एकाउंट्स ब्रांच

बी० बी० अग्रवाल (6647)—23 जून 1968 ।

टेक्निकल (सिगनल) ब्रांच

एस० के० पुरी (7634)—27 जून 1968 ।

सं० 618, तारीख 19 फरवरी 1969—राष्ट्रपति, निम्न-लिखित एयर अफसर को, नियमित एयर फोर्स में सेवावधि पूर्ण होने से सेवा-निवृत्त हो जाने पर, नियमित एयर फोर्स रिजर्व में स्थानान्तरित करते हैं :—

इंडियन एयर फोर्स

जी० डी० (एन०) ब्रांच

एयर वाइस मार्शल एम० एस० चतुर्वेदी (1592)—1 जनवरी 1969 से 31 दिसम्बर 1973 तक ।

सं० 619, तारीख 19 फरवरी 1969—राष्ट्रपति, निम्न-लिखित अफसरों को स्वेच्छा से नियमित एयर फॉर्म से सेवा-निवृत्त होने पर, नियमित एयर फॉर्म रिजर्व में स्थानान्तरित करने हैं :—

इंडियन एयर फोर्स

जी० डी० (पी०) ब्रांच

विंग कमांडर ए० एम० विलियम्स, वीर चक्र (3950), स्क्वाड्रन लीडर एस० एम० राजन (4201), ए० जी० त्रिवेदी (4411), पी० वी० मेनन (4592), वी० आर० कपूर (4598) तथा आर० शर्मा (1728)—3 अक्टूबर 1968 से 2 अक्टूबर 1973 तक।

विंग कमांडर एल० ए० प्रेस्टन (3417)—18 दिसम्बर 1968 से 17 दिसम्बर 1973 तक।

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट आई० पी० अहजा (5389)—9 अक्टूबर 1968 से 8 अक्टूबर 1973 तक।

सं० 620, तारीख 19 फरवरी 1969—राष्ट्रपति, निम्न-लिखित अफसरों को अपने कमीशन में त्यागपत्र देने की अनुमति देते हैं :—

इंडियन एयर फोर्स

जी० डी० (पी०) ब्रांच

स्क्वाड्रन लीडर एन० एन० वर्न (5046)—16 जनवरी 1969।

होशनाक मिह, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 8th March 1969

No. 547, dated Feb. 1969.—The President is pleased to appoint the following permitt. Officers of the Section Officers' Grade of the CSS Cadre of the Min. of Def. to officiate in Grade I of the Service for the periods mentioned against them :—

Shri P. N. Prabhakar—from 1-2-1969 to 3-2-1969 and from 5-2-1969 to 28-2-1969.

Shri R. S. Chaudhri—from 1-2-1969 to 28-2-1969.

Shri V. S. Raghavan—from 1-2-1969 to 12-2-1969 and from 14-2-1969 to 28-2-1969.

Shri T. Jacob—from 1-2-1969 to 28-2-1969.

Shri N. V. Swaminathan—from 1-2-1969 to 28-2-1969.

Shri Hoshnak Singh—from 29-1-1969 to 28-2-1969.

Shri F. M. Virjee—from 1-2-1969 to 28-2-1969.

Shri H. C. Arora—from 2-2-1969 to 15-2-1969.

The President is also pleased to appoint the above mentioned officers as Under Secretaries, Min. of Def. for the aforesaid periods.

C. L. DHINGRA, Under Secy.

No. 548, dated 18th Feb. 1969.—The President is pleased to make the following appointments :—

Office of the C.A.O.

Shri Ram Kishore, Pt. CSO, to be Sr. Civilian Staff Officer in an officiating capacity from 13th Aug. 1968 to 12th Feb. 1969 (AN) vice Shri J. S. Fernandes, retired.

E. A. LOBO, Asstt. C.A.O.

No. 549, dated 17th Feb. 1969.—The President is pleased to make the following appointments :—

Office of the C.A.O.

Shri E. A. Lobo, Pt. CSO, to be Sr. Civilian Staff Officer in an officiating capacity from 6th Aug. 1968 to 15th Feb. 1969 (AN) vice Shri M. D. Dalakoti, retired.

Shri R. K. Mittal, Pt. Supdt., to be Civilian Staff Officer in an offg. capacity from 6th Aug. 1968 to 5th Feb. 1969 (AN) vice Shri F. A. Lobo, promoted.

Shri P. L. Vadhana, Pt. Asstt. to be offg. Supdt., in an offg. capacity from 6th Aug. 1968 to 5th Feb. 1969 (AN) vice Shri R. K. Mittal, promoted.

Shri M. L. Bhardwaj, Pt. Asstt., to be Supdt. in an offg. capacity from 19th Aug. 1968 to 19th Oct. 1968, vice Shri V. P. Behl, Supdt. on leave.

Shri K. G. Dewan, Pt. Asstt. to be Supdt. in an Offg. capacity from 1st Nov. 1968 to 10th Dec. 1968, vice Shri S. S. Sharma, Supdt. on leave.

Shri C. P. Bassi, Pt. Asstt. to be Supdt. in an offg. capacity from 18th Nov. 1968 to 20th Dec. 1968, vice Shri Narindar Nath, Supdt. on leave.

Shri M. L. Bhardwaj, Pt. Asstt. to be Supdt. in an offg. capacity from 4th Nov. 1968 to 4th Jan. 1969 vice Shri P. C. Sharma, Supdt. on leave.

RAM KISHORE, Asstt. C.A.O.

DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 550, dated 21st Feb. 1969.—The President is pleased to make the following appointment :—

Shri O. N. BAMZAI to be tempy. Language Officer, Scientific Analysis Group, R&D Headquarters, on probn. for a period of 2 years—15th Jan. 1969 (FN).

No. 551, dated 21st Feb. 1969.—The President is pleased to make the following promotion :—

Shri Inderjit Kapoor, Offg. Asstt. Admin. Officer (ad-hoc) Instruments Research & Development Establishment, Dehra Dun to be Offg. Asstt. Administrative Officer in the same Establishment w.e.f. 16th Nov. 1968 (FN).

No. 552, dated 21st Feb. 1969.—The President is pleased to make the following promotion :—

Defence Science Service

Shri N. Ramakrishna Iyer, tempy. Jr. Scientific Officer, Def. Research and Development Laboratory, Hyderabad, to be Offg. Sr. Scientific Officer, Grade II, in the same establishment—12th Dec. 1968 (F.N.).

Smt. J. KATHPALIA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION)

No. 553, dated 20th Feb. 1969.—The President is pleased to confirm Shri M. P. Jain as Dy. Planning Officer (Contracts), Directorate of Planning & Coordination, Min. of Def., w.e.f. 6th Feb. 1968.

THOMAS P. MATTHAI, Under Secy.

INDIAN ORDNANCE FACTORIES ORGANISATION

No. 554, dated 14th Feb. 1969.—The President is pleased to appoint Dr. (Mrs.) T. Radhamoni as Tempy. Surgeon Grade I at Cordite Factory, Aruvankadu w.e.f. 2nd Mar. 1968 (FN) until further orders.

No. 555, dated 19th Feb. 1969.—The President is pleased to appoint Dr. A. K. Sarkar as a tempy. Asstt. Surgeon Grade I (Male) in Cordite Factory, Aruvankadu w.c.f. 9th Dec. 1968 until further orders.

No. 556, dated 19th Feb. 1969.—The President is pleased to accept the resignation of Dr. Yogendra Singh, tempy. Asstt. Surgeon Grade I. Harness & Saddlery Factory, Kanpur w.c.f. 4th Dec. 1968 (A.N.).

No. 557, dated 20th Feb. 1969.—The following amendment is made to this Min.'s Gazette Notn. No. 759, dated 24th Feb. 1967. Against Shri Rajat Kumar Sarnaik for "14th July 1966" read "14th July 1966 (A.N.)."

H. R. KHATTAR, Under Secy.

NATIONAL CADET CORPS

No. 558, dated 18th Feb. 1969.—The undermentioned is granted the Honorary Rank of Colonel in the National Cadet Corps and is appointed as Honorary Colonel Commandant N.C.C. in the Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur, for the period of his appointment as Vice-Chancellor:

Dr. L. S. Negi, Vice-Chancellor, Krishi Vishwa Vidyalaya, JABALPUR, 20th Mar. 1968.

V. SUBRAHMANYAN, Dy. Secy.

NATIONAL CADLT CORPS

No. 559, dated 18th Feb. 1969.—The President is pleased to grant commission to the following:—

Senior Division (Army Wing)

To be Lieuts.

Yash Pal ARYA (NCC/11696) 28th Dec. 1967, with seniority for promotion as 2/Lt. from 6th Mar. 1964 and as Lt. from 6th Mar. 1967.

Krishna Kumar HANDIQUE (NCC/11697), 21st Mar. 1968, with seniority for promotion as 2/Lt. from 20th Mar. 1964 and as Lt. from 20th Mar. 1967.

Ravindra Singh VIRK (NCC/11700), 23rd Nov. 1967, with seniority for promotion as 2/Lt. from 19th Nov. 1963 and as Lt. from 19th Nov. 1966.

Bhagwan Singh THAPA (NCC/11701), 30th Dec. 1967, with seniority for promotion as 2/Lt. from 26th Dec. 1963 and as Lt. from 26th Dec. 1966.

Vishnu Govindrao SHINGORE (NCC/11702), 20th Jan. 1968, with seniority for promotion as 2/Lt. from 16th Jan. 1964 and as Lt. from 16th Jan. 1967.

Daya Nand SANGWAN (NCC/11728), 4th July 1968, with seniority for promotion as 2/Lt. from 16th Oct. 1963 and as Lt. from 16th Oct. 1966.

HARJIT SINGH (NCC/11731) 8th July 1968, with seniority for promotion as 2/Lt. from 15th Oct. 1963 and as Lt. from 15th Oct. 1966.

Amar Singh RATHOR (NCC/11732), 10th June 1968, with seniority for promotion as 2/Lt. from 15th Oct. 1963 and as Lt. from 15th Oct. 1966.

Baldev Raj ARORA (NCC/11733), 15th June 1968, with seniority for promotion as 2/Lt. from 20th Oct. 1963, and as Lt. from 20th Oct. 1966.

RAJINDER SINGH (NCC/11734), 18th June 1968, with seniority for promotion as 2/Lt. from 23rd Oct. 1963 and as Lt. from 23rd Oct. 1966.

TIRATH SINGH (NCC/11735), 19th June 1968 with seniority for promotion as 2/Lt. from 24th Oct. 1963 and as Lt. from 24th Oct. 1966.

Tarlok Singh SONI (NCC/11736), 8th July 1968, with seniority for promotion as 2/Lt. from 20th Oct. 1963 and as Lt. from 20th Oct. 1966.

Poresh Kumar BANERJEE (NCC/11737), 15th July 1968, with seniority for promotion as 2/Lt. from 19th Nov. 1963 and as Lt. from 19th Nov. 1966.

Battindra Appayya DEYAYA (NCC/11738), 21st June 1968, with seniority for promotion as 2/Lt. from 26th Oct. 1963 and as Lt. from 26th Oct. 1966.

BHUPINDRA SINGH (NCC/11739), 4th Aug. 1968, with seniority for promotion as 2/Lt. from 29th Jan. 1964 and as Lt. from 29th Jan. 1967.

Ram Singh RANA (NCC/11740), 2nd June 1968, with seniority for promotion as 2/Lt. from 7th Dec. 1963 and as Lt. from 7th Dec. 1966.

Gopalakrishnan Nair Velre Gopalan NAIR (NCC/11742), 5th June 1968, with seniority for promotion as 2/Lt. from 10th Oct. 1963 and as Lt. 10th Oct. 1966.

Ramesh Chandar SHARMA (NCC/11743), 14th July 1968, with seniority for promotion as 2/Lt. from 26th Oct. 1963 and as Lt. from 26th Oct. 1966.

BALDEV SINGH (NCC/11744), 2nd June 1968, with seniority for promotion as 2/Lt. from 27th Feb. 1964 and as Lt. from 27th Feb. 1967.

Kundan Singh DHILLON (NCC/11745), 17th July 1968, with seniority for promotion as 2/Lt. from 29th Oct. 1963 and as Lt. from 29th Oct. 1966.

AJMFL SINGH (NCC/11746), 20th July 1968, with seniority for promotion as 2/Lt. from 15th May 1964 and as Lt. from 15th May 1967.

Karamjit Singh GREWAL (NCC/11747), 12th June 1968, with seniority for promotion as 2/Lt. from 14th Apr. 1964 and as Lt. from 14th Apr. 1967.

Debaprosad DEB NCC/11748), 8th June 1968 with seniority for promotion as 2/Lt. from 10th Apr. 1964 and as Lt. from 10th Apr. 1967.

Pattathi Parambil Joseph VARGHESE (NCC/11749), 27th May 1968, with seniority for promotion as 2/Lt. from 29th Mar. 1964 and as Lt. from 29th Mar. 1967.

DIN DAYAL (NCC/11750), 27th May 1968, with seniority for promotion as 2/Lt. from 22nd Mar. 1964 and as Lt. from 22nd Mar. 1967.

Shiv Krishan Lal WHIG (NCC/11751), 6th June 1968, with seniority for promotion as 2/Lt. from 1st Apr. 1964 and as Lt. from 1st Apr. 1967.

BALBIR SINGH (NCC/11752), 11th June 1968, with seniority for promotion as 2/Lt. from 16th Oct. 1963 and as Lt. from 16th Oct. 1966.

Srinivasan BALAGOPAL (NCC/11789), Pithi Paul SINGH (NCC/11790), 3rd Aug. 1968, with seniority for promotion as 2/Lt. from 28th Jan. 1964 and as Lt. from 28th Jan. 1967.

YOGENDRA SINGH (NCC/11793), Kr. Raghubir Singh PARMAR (NCC/11794), Ajit Singh JAGGI (NCC/11795), Goverdhan Lal SHARMA (NCC/11796), 5th Aug. 1968, with seniority for promotion as 2/Lt. from 30th Jan. 1964 and as Lt. from 30th Jan. 1967.

Yellaraddi Basavreddi BHARAMRADDI (NCC/11797), 6th Aug. 1968, with seniority for promotion as 2/Lt. from 31st Jan. 1964, and as Lt. from 31st Jan. 1967.

RAM SINGH (NCC/11798), LAKHWINDER SINGH (NCC/11799), 7th Aug. 1968, with seniority for promotion as 2/Lt. from 1st Feb. 1964 and as Lt. from 1st Feb. 1967.

Mohinder Singh SIDHU (NCC/11801), 9th Aug. 1968, with seniority for promotion as 2/Lt. from 3rd Feb. 1964 and as Lt. from 3rd Feb. 1967.

Rajesh Kumar SAXENA (NCC/11805), 4th Sep. 1968, with seniority for promotion as 2/Lt. from 5th Feb. 1964 and as Lt. from 5th Feb. 1967.

BALJIT SINGH (NCC/11807), 15th Aug. 1968, with seniority for promotion as 2/Lt. from 9th Feb. 1964 and as Lt. from 9th Feb. 1967.

SURENDRA KUMAR (NCC/11808), 16th Aug. 1968, with seniority for promotion as 2/Lt. from 10th Feb. 1964 and as Lt. from 10th Feb. 1967.

Senior Division (Army Wing)

To be 2/Lt.

Madhya Pradesh

Sharan Kumar SHINDE (NCC/2381), 1st Nov. 1966 with seniority for promotion from 10th Oct. 1965.

Prabhu Shankar SHUKLA (NCC/2382), 18th July 1967, with seniority for promotion from 6th Sep. 1966.

To be 2/Lts.

Punjab

Surinder Kumar MEHTA (NCC/6377), 1st Aug. 1966, with seniority for promotion from 31st July 1965.

To be 2/Lts.

Uttar Pradesh

Balam Singh NEGI (NCC/5222), 16th July 1964, with seniority for promotion from 11th Jan. 1964.

BRAHAM PRAKASH (NCC/5223), 1st July 1965, with seniority for promotion from 14th Apr. 1964.

No. 560, dated 20th Feb. 1969.—The President is pleased to make the following promotions :—

Senior Division (Army Wing)

Cpts. to be Majors

Madras

S. A. Shah (NCC/1123), 1st Aug. 1968.

Punjab

V. P. Pansal (NCC/5844), 1st June 1968.

G. S. Deol (NCC/5845), 1st July 1968.

Mysore

V. S. Menon (NCC/7013), 8th May 1968.

Andhra Pradesh

P. A. Prasad (NCC/8213), 29th July 1968.

Lts. to be Cpts.

Maharashtra

M. G. Latkar (NCC/176), 13th Jan. 1968.

M. D. Deshpande (NCC/135), 20th July 1968.

Madras

G. Subramanayan (NCC/1276), 31st July 1968.

Madhya Pradesh

P. D. Sharma (NCC/1921), 26th June 1968.

M. M. Ali (NCC/1925), 1st July 1968.

West Bengal

A. K. Chakrabarti (NCC/2607), 1st May 1968.

Uttar Pradesh

O. P. Agrwal (NCC/4302), 31st July 1968.

P. C. Gupta (NCC/4296) and R. N. Kethkar (NCC/4297), 29th July 1968.

Punjab

B. C. Verma (NCC/5930), 5th May 1968.

Mysore

B. L. C. Rajan (NCC/7055), 29th July 1968.

Kerala

M. Sudalaimuthu (NCC/7676), T. C. Mathew (NCC/7672), 31st July 1968.

M. D. Nambiar (NCC/7659), 26th June 1968.

Andhra Pradesh

M. R. Rao (NCC/8344), K. V. Reddy (NCC/8340), 26th June 1968.

D. V. S. K. Sastry (NCC/8347), 28th June 1968.

K. A. G. Khan (NCC/8348), 15th July 1968.

V. V. Prasad (NCC/8353), B. Narasalah (NCC/8355), 31st July 1968.

Gujarat

Y. P. Desai (NCC/9696), 1st July 1968.

R. R. Pandya (NCC/9699), V. C. Upadhyaya (NCC/9703), 31st July 1968.

2/Lts. to be Lts.

Madhya Pradesh

B. D. Sahasrabudhe (NCC/2230), 28th Mar. 1968.

B. M. L. Tiwari (NCC/2206), 29th June 1967.

Punjab

S. P. Kanwal (NCC/6268), M. R. Kumar (NCC/6269), B. D. Bhandari (NCC/6271), Surinder Kumar (NCC/6273), O. P. Tuknyat (NCC/6279), S. P. Saini (NCC/6280), K. K. Puri (NCC/6281), R. C. Chawla (NCC/6275), 30th June 1968.

Harjinder Singh (NCC/6122), 9th July 1966.

T. S. Majithia (NCC/6171), 6th Feb. 1968.

Amarjit Singh (NCC/6200), 9th May 1967.

R. C. Gaur (NCC/6112), 9th Apr. 1967.

Haryana

O. P. Khandelwal (NCC/6303), 18th Feb. 1967.

Kerala

V. E. Ramakrishnan (NCC/7871), 14th July 1968.

C. K. Jose (NCC/7890), 30th June 1968.

Andhra Pradesh

V. R. Reddy (NCC/8697), P. S. Rao (NCC/8695), P. Kandaswamy (NCC/8696), P. A. K. Rao (NCC/8698), B. G. Reddy (NCC/8699), B. N. Rao (NCC/8700), 30th June 1968.

Yeshwant Deshpande (NCC/8466), 16th June 1968.

P. S. Reddy (NCC/8587), 20th Feb. 1968.

N. Venkatasubbaiah (NCC/8608), 29th Jan. 1968.

H. V. Joseph (NCC/8619), 14th June 1968.

Venkatesh Vaidya (NCC/8693), 28th Mar. 1968.

V. N. Murty (NCC/8778), 24th Feb. 1968.

K. K. Rao (NCC/8688), 2nd May 1968.

M. S. Khan (NCC/8632), 28th June 1967.

M. R. K. Rao (NCC/8663), 10th July 1968.

K. M. Rao (NCC/8793), 23rd July 1968.

Gujarat

Y. I. Dixit (NCC/9802), 30th June 1966.

V. V. Bosmia (NCC/9940), 7th Dec. 1967.

Senior Division (Naval Wing)

Sub-Lts. to be Lts.

Maharashtra

P. G. Kher (NCCN/189), 27th July 1968.

Senior Division (Air Wing)

Flg. Offrs. to be Flt. Lts.

Kerala

K. G. K. Panikkar (NCCA/7670), 17th July 1968.

Andhra Pradesh

M. V. Rao (NCCA/8358), 2nd Aug. 1968.

K. P. Rao (NCCA/8341), 17th July 1968.

B. Hussain (NCCA/8319), 19th July 1968.

Gujarat

T. D. Patel (NCCA/9697), 17th July 1968.

Plt. Offrs. to be Flg. Offrs.

Mysore

G. S. Prasad (NCCA/7391), 4th July 1968.

Andhra Pradesh

N. Sriramulu (NCCA/8788), G. Narayan (NCC/8789), 20th July 1968.

No. 561, dated 20th Feb. 1969.—The President is pleased to discharge the following officer from the National Cadet Corps w.e.f. 31st Oct. 1966. The period shown in brackets against his name shall not be counted for the purposes of seniority, promotion or any other benefits in the National Cadet Corps:—

*Senior Division (Army Wing)**Madhya Pradesh*

2/Lt. S. K. Shinde (NCC/2107), (1st July, 1964 to 30th Oct. 1966).

No. 562, dated 20th Feb. 1969.—The President is pleased to discharge the following officer from the National Cadet Corps with effect from 17th July, 1967. The period shown in brackets against his name shall not be counted for the purpose of seniority or promotion or any other benefits in the National Cadet Corps:—

*Senior Division (Army Wing)**Madhya Pradesh*

2/Lt. P. S. Shukla (NCC/2194), (1st July, 1965 to 16th July, 1967).

No. 563, dated 20th Feb. 1969.—The President is pleased to discharge the following officers from the National Cadet Corps w.e.f. 31st July, 1966. The period shown in brackets against his name shall not be counted for the purpose of seniority or promotion or any other benefits in the National Cadet Corps:—

*Senior Division (Army Wing)**Punjab*

2/Lt. S. K. Mehta (NCC/6201), (10th July, 1964 to 30th July, 1966).

No. 564, dated 14th Feb. 1969.—The President is pleased to discharge the following officers from the National Cadet Corps w.e.f. the dates indicated against their names:—

*Senior Division (Army Wing)**Uttar Pradesh*

2/Lt. B. S. Negi (NCC/4432), 1st Jan. 1962.

2/Lt. Braham Prakash (NCC/4909), 28th Sep. 1964.

(This cancels M. of D. Notn. No. 715, dated 28th Feb. 1966, published in the Gazette of India, dated 19th Mar. 1966, in so far as it relates to the above named officers).

CORRIGENDA

No. 565, dated 20th Feb. 1969.—In M. of D. Notn. No. 1550, dated 14th June 1968 published in the G. of I., dated 29th June, 1968, under heading 'Senior Division (Army Wing)', below 'Bihar' for "2/Lt. M. L. Das (NCC/3872)" read "2/Lt. J. N. Singh (NCC/3802)".

No. 566, dated 17th Feb. 1969.—(i) In M. of D. Notn. No. 1789, dated 13th June 1967 published in the G. of I., dated 1st July 1967, under the heading 'Junior Division (Army Wing)' sub heading 'To be Third Officers' below 'Madras' delete the names 'VAITHNATHA CHETTIAR VEERAMALAI (NCCJ/51457), 24th Jan. 1967.'

'Kandasamygounder KRISHNAMURTHY (NCCJ/51467), Irulappa Nadar NATARAJAN (NCCJ/51473), David Nadar ANDREA (NCCJ/51476), Muthurakkapathavar Ramalinga PANDIAN (NCCJ/51477).'

(ii) In M. of D. Notn. No. 2036, dated 11th July 1967 published in the G. of I., dated 29th July 1967 under the heading 'Junior Division (Army Wing)' sub heading 'To be Third Officers' below 'Madras' delete the names 'Devarajaiyer MAHADEVAN (NCCJ/51480), Olaganathan GANAPATHY (NCCJ/51485), Venkatarama RANGAREDDY (NCCJ/51489), Periakuruppan PANDIAN, (NCCJ/51493), Surapalli Kaligounder PARAMASIVAM, (NCCJ/51496), Samuel VICTOR JEYASINGH (NCCJ/51498).'

V. FERRAO, Dir. of Pers.

No. 567, dated 20th Feb. 1969.—The President is pleased to make the following appointment:—

Joint Cipher Bureau

Shri K. L. Kapur, tempy. Research Officer to be Offg. Chief Research Officer from 29th Oct., 1968 to 18th Jan. 1969 vice Shri K. N. Yawalker detailed for Computer Programmer's Course.

No. 568, dated 12th Feb. 1969.—The President is pleased to make the following appointment:—

Research and Development Organisation

Shri Om Prakash Maithel, perm. Assistant to be offg. Supdt. until further orders in an existing vacancy w.e.f. 29th Jan. 1969 and will be on probn. for two years.

RAM KISHORE, Asstt. C.A.O.

No. 569, dated 20th Feb. 1969.—The President is pleased to make the following appointment:—

*Comds. & Staff**To be B.G.S., H.Q., a Corps*

Brig. U. K. Gupta (IC 1518), 9th Dec. 1968.

K. V. RAMANAMURTHI, Dy. Secy.

*ARMY HEADQUARTERS**AG's Branch*

No. 570, dated 13th Feb. 1969.—The President is pleased to appoint Shri H. C. Mithal, Perm. Statistical Assistant/Offg. Statistical Investigator as Statistical Officer in an officiating capacity from 23rd Dec. 1968 to 31st Jan. 1969 vice Shri S. P. Joti, Statistical Officer, granted leave.

E. A. LOBO, Asstt. C.A.O.

MS Branch

No. 571, dated 14th Feb. 1969.—The President is pleased to make the following appointments:—

Shri V. Sundaram, perm. Supdt. as CSO in an offg. capacity for the period from 16th Dec. 1968 to 23rd Jan. 1969 vice Shri R. M. Iyer, perm. Supdt./offg. CSO proceeded on leave.

Shri A. N. Sehgal, perm. Asstt. as Supdt., in an offg. capacity for the period from 16th Dec. 1968 to 23rd Jan. 1969 vice Shri V. Sundaram, promoted.

RAM KISHORE, Asstt. C.A.O.

No. 572, dated 20th Feb. 1969.—The President is pleased to make the following appointment:—

*Army Headquarters**To be D. D. Arty.*

Brig. J. S. Sandhu (IC 635), Artillery, 27th Jan. 1969.

K. V. RAMANAMURTHI, Dy. Secy.

ARMY BRANCH

No. 573, dated 4th Feb. 1969.—The President is pleased to make the following appointment:—

*REGULAR ARMY**Permanent Commission*

The undermentioned Short Service Commissioned officer is granted Perm. Commission in the rank of 2/Lt. w.e.f. 11th July 1968 under AI 7/S/66 with seniority (including two years ante date) for pay and promotion from 27th Sep. 1961 and 15 Apr. 1962 respectively and relinquishes his Short Service Commission from the same date. By virtue of his seniority, he is promoted to the rank of Lt. w.e.f. 11th July 1968 with seniority in that rank from 15th Apr. 1964.

Romesh Chandar SHARMA (SS 18227 now IC 19798) Engineers.

No. 574, dated 3rd Feb. 1969.—The President is pleased to make the following appointment:—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

The undermentioned Short Service Commissioned officer is granted Permanent Commission in the rank of 2/Lt. w.e.f. 11th July 1968 under AI 7/S/66 with seniority (including two years' ante date) for pay and promotion from 13th Oct. 1961 and 29th Apr. 1962 respectively and relinquishes his Short Service Commission from the same date. By virtue of his seniority, he is promoted to the rank of Lt. w.e.f. 11th July 1968 with seniority in that rank from 29th Apr. 1964.

Mulri Manohari BATRA (SS 18266 now IC 19801), Engineers

No. 575, dated 4th Feb. 1969.—The President is pleased to make the following appointment:—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

The undermentioned Short Service Commissioned officer is granted Permanent Commission in the rank of 2/Lt. w.e.f. 4th June 1968 under AI 7/S/66 with seniority (including two years' ante date) for pay and promotion from 26th Jan. 1962 and 15th July 1962 respectively and relinquishes his Short Service Commission from the same date. By virtue of his seniority, he is promoted to the rank of Lt. w.e.f. 4th June 1968 with seniority in that rank from 15th July 1964.

Raj Kumar AGARWAL (SS 18241 now IC 19770) E.M.E.

No. 576, dated 4th Feb. 1969.—The President is pleased to make the following appointment:—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

The undermentioned Short Service Commissioned officers are granted Permanent Commission in the rank of 2/Lt. w.e.f. 4th June 1968 under AI 7/S/66 with seniority (including two years' ante date) for pay and promotion from 2nd Feb. 1962 and 22nd July 1962 respectively and relinquish their Short Service Commission from the same date. By virtue of their seniority, they are promoted to the rank of Lt. w.e.f. 4th June 1968 with seniority in that rank from 22nd July 1964.

Belur Sethumamaivengar KRISHNA MURTHY (SS 18214 now IC 19771) Engineers

Davindra Nath WADIWA (SS 18210 now IC 19772), Engineers.

Har Mander Singh DANDONA (SS 18340 now IC 19773) Engineers.

No. 577, dated 18th Feb. 1969.—The President is pleased to make the following appointment:—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

The undermentioned Short Service Commissioned officer is granted Permanent Commission in the rank of 2/Lt. w.e.f. 4th Sep. 1968 under AI 7/S/66 with seniority (including two years' ante date) for pay and promotion from 9th Feb. 1962 and 31st July 1962 respectively and relinquishes his Short Service Commission from the same date. By virtue of his seniority, he is promoted to the rank of Lt. w.e.f. 4th Sep. 1968 with seniority in that rank from 31st July 1964.

Ved Parkash VOHRA (SS 17149 now IC 19821) Engineers.

No. 577(a), dated 4th Feb. 1969.—The President is pleased to make the following appointment:—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

The undermentioned Short Service Commissioned officer is granted Permanent Commission in the rank of 2/Lt. w.e.f. 4th June 1968 under AI 7/S/66 with seniority (including two years' ante date) for pay and promotion from 9th Feb. 1962 and 31st July 1962 respectively and relinquishes his Short Service Commission from the same date. By virtue

of his seniority, he is promoted to the rank of Lt. with effect from 4th June 1968 with seniority in that rank from 31st July 1964.

Jaswant Singh SANDHU (SS 17162 now IC 19780) F.M.E.

No. 578, dated 18th Feb. 1969.—The President is pleased to make the following appointment:—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

The undermentioned Short Service Commissioned officer is granted Permanent Commission in the rank of 2/Lt. w.e.f. 11 July 1968 under AI 7/S/66 with seniority (including two years' ante date) for pay and promotion from 9 Feb. 1962 and 26 Jul. 1962 respectively and relinquishes his Short Service Commission from the same date. By virtue of his seniority, he is promoted to the rank of Lt. with effect from 11th Jul. 1968 with seniority in that rank from 26th Jul. 1964.

WAJAHAT KABIR (SS 17156 now IC 19803), Engineers.

No. 579, dated 18th Feb. 1969.—The President is pleased to make the following appointment:—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

The undermentioned Short Service Commissioned officer is granted Permanent Commission in the rank of 2/Lt. w.e.f. 11 Jul. 1968 under AI 7/S/66 with seniority (including two years' ante date) for pay and promotion from 9th Feb. 1962 and 29th Jul. 1962 respectively and relinquishes his Short Service Commission from the same date. By virtue of his seniority, he is promoted to the rank of Lt. w.e.f. 11th Jul. 1968 with seniority in that rank from 29th Jul. 1964.

Avinash Vasudeo THAKUR (SS 17166 now IC 19808), I.M.E.

No. 580, dated 3rd Feb. 1969.—The President is pleased to make the following appointment:—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

The undermentioned Short Service Commissioned officer is granted Permanent Commission in the rank of 2/Lt. w.e.f. 4 Sep. 1968 under AI 7/S/66 with seniority (including two years' ante date) for pay and promotion from 9th Feb. 1962 and 16th Aug. 1962 respectively and relinquishes his Short Service Commission from the same date. By virtue of his seniority, he is promoted to the rank of Lt. with effect from 4th Sep. 1968 with seniority in that rank from 16th Aug. 1964.

KAMLESH PRAKASH (SS 17170 now IC 19820), Engineers

No. 581, dated 18th Feb. 1969.—The President is pleased to make the following appointment:—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

The undermentioned Short Service Commissioned officer is granted Permanent Commission in the rank of 2/Lt. w.e.f. 4 Sep. 1968 under AI 7/S/66 with seniority (including two years' ante date) for pay and promotion from 9th Feb. 1962 and 22nd Aug. 1962 respectively and relinquishes his Short Service Commission from the same date. By virtue of his seniority he is promoted to the rank of Lt. w.e.f. 4th Sep. 1968 with seniority in that rank from 22nd Aug. 1964.

Venkat Subramanyam IYER (SS 17183 now IC 19819), Engineers.

No. 582, dated 18th Feb. 1969.—The President is pleased to make the following appointment:—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

The undermentioned Short Service Commissioned officer is granted Permanent Commission in the rank of 2/Lt. w.e.f. 4 Sep 1968 under AI 7/S/66 with seniority (including

two years' ante date) for pay and promotion from 10th May 1962 and 21st Oct. 1962 respectively and relinquishes his Short Service Commission from the same date. By virtue of his seniority, he is promoted to the rank of Lt. w.e.f. 4th Sep. 1968 with seniority in that rank from 21st Oct. 1964.

Kewal Krishan MOHIN (SS 17414 now IC 19822), Engineers.

No. 583, dated 18th Feb. 1969.—The President is pleased to make the following appointment:—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

The undermentioned Short Service Commissioned officer is granted Permanent Commission in the rank of 2/Lt. w.e.f. 4 Sep. 1968 under AI 7/S/66 with seniority (including two years' ante date) for pay and promotion from 6th Oct. 1961 and 22nd Apr. 1962 respectively and relinquishes his Short Service Commission from the same date. By virtue of his seniority, he is promoted to the rank of Lt. w.e.f. 4th Sep. 1968 with seniority in that rank from 22nd Apr. 1964.

Sadanand Jiwaji APTE (SS 18200 now IC 19818), Engineers.

No. 584, dated 3rd Feb. 1969.—The President is pleased to make the following appointment:—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

The undermentioned Short Service Commissioned officer is granted Permanent Commission in the rank of 2/Lt. w.e.f. 4 June 1968 under AI 7/S/66 with seniority (including two years' ante date) for pay and promotion from 14th Feb. 1963 and 20th Jul. 1963 respectively and relinquishes his Short Service Commission from the same date. By virtue of his seniority, he is promoted to the rank of Lt. with effect from 4th June 1968 with seniority in that rank from 20th Jul. 1965.

AMARJIT SINGH (SS 18163 now IC 19794), E.M.E.

No. 585, dated 18th Feb. 1969.—The President is pleased to make the following appointment:—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

The undermentioned Short Service Commissioned officer is granted Permanent Commission in the rank of 2/Lt. w.e.f. 11 July 1968 under AI 7/S/66 with seniority (including two years' ante date) for pay and promotion from 14th Feb. 1963 and 20th Jul. 1963 respectively and relinquishes his Short Service Commission from the same date. By virtue of his seniority, he is promoted to the rank of Lt. with effect from 11th Jul. 1968 with seniority in that rank from 20th Jul. 1965.

KAMALAKANTA ACHARYA (SS 17361 now 19817), E.M.E.

No. 586, dated 18th Feb. 1969.—The President is pleased to make the following appointment:—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

The undermentioned Short Service Commissioned officer is granted Permanent Commission in the rank of 2/Lt. w.e.f. 4 Sep. 1968 under AI 7/S/66 with seniority (including two years' ante date) for pay and promotion from 14th Feb. 1963 and 20th Jul. 1963 respectively and relinquishes his Short Service Commission from the same date. By virtue of his seniority, he is promoted to the rank of Lt. with effect from 4th Sep. 1968 with seniority in that rank from 20th Jul. 1965.

MYSORE SUBBA RAO VASANTHA KUMAR (SS 18136 now IC 19823), Engineers.

No. 587, dated 4th Feb. 1969.—The President is pleased to make the following appointment:—

REGULAR ARMY

Permanent Commission (Special List)

The undermentioned J.C.O. is granted permanent commission in the Special List of Quartermasters w.e.f. 1st Jan. 1968 in the rank of Lt. under AI 24 of 59.

Nb. Sub. MANGAL SINGH (JC-25705 now SL-1361), Arty., with seniority from 1st Jan. 1966 for purposes of pay only under AI 222 of 48.

No. 588, dated 3rd Feb. 1969.—The President is pleased to make the following appointment:—

REGULAR ARMY

Permanent Commission (Special List)

The undermentioned J.C.O. is granted permanent commission in the Special List of Record Officers w.e.f. 1st Jan. 1968 in the rank of Lt. under AI 24 of 59.

Nb. Sub. Tushar Kanti BOSE (JC-17828 now SL-1424), A.S.C., with seniority from 1st Jan. 1966 for purposes of pay only under AI 222 of 48.

F. M. VIRJEE, Under Secy.

No. 589, dated 24th Feb. 1969.—The President is pleased to make the following appointments:—

Corps of EME

To be temporary Workshop Officer Class I in the Corps of EME till further orders:—

SHRI RANBIR KUMAR SONI, 10th Jan. 1969 (FN).

The officer will be on prob. for a period of two years.

To be temp. Workshop Officer Class II in the Corps of EME till further orders:—

Shri Arup Kanti De, 20th Jan. 1969 (FN).

The above officer will remain on prob. for a period of two years.

No. 590, dated 24th Feb. 1969.—The President is pleased to make the following appointments:—

Military Engineer Services

To be Asstt. Executive Engineer

(B/R) on two years' probn.

Shri Joganando GANGULY, 12th Dec. 1968 (F.N.).

To be temp. Asstt. Executive Engineer

(E/M) on two years' probn.

Shri Girish Kumar SRIVASTAVA, 7th Dec. 1968 (F.N.).

To be temp. Asstt. Executive Engineer

(B/R) on two years' probn.

Shri Shri Kant SHARMA, 24th Dec. 1968 (F.N.).

Permt. Supdt. Clerical and temp. AO I to be permt. AO Grade II.

Shri AV NAIR (deceased), 1 Apr. 1962.

Shri TN NATARAJAN, 1st Apr. 1962.

Shri R. RAMANUJAN (Retd.), 1st Apr. 1962.

Shri SOHAN LAL ABBOTT, 1st April 1962.

Shri K. E. S. NAIR, 6th May 1962.

Shri S. N. MEHTA (Retd.), 21st Jun. 1962.

Shri P. R. PONNAMBALAM (Retd.), 1st Jul. 1962.

Shri L. M. APTE, 12th Sep. 1962.

Shri R. SUNDARARAJAN, 21st Jul. 1963.

Shri JESA RAM DHINGRA, 1st Apr. 1964.

Shri P. N. KANDPAL, 1st Apr. 1964.

Shri G. SRIDHARA IYENGAR, 1st Apr. 1964.

Shri S. BRAHMAIAH (Retd.), 1st Apr. 1964.

Shri PRAKASH SWAROOP (Retd.), 1st Apr. 1965.

Shri S. RAMAMIRTHAM (Retd.), 1st Apr. 1965.

Shri LOK NATH KATHURIA, 12th Dec. 1965.

Shri R. NATARAJAN, 17th Dec. 1965.

Shri S. N. MUKERJEE (Retd.), 19th Dec. 1965.

Shri RANENDU BHUSHAN SEN, 7th Jan. 1966.

Shri R. S. TYAGI, 1st May 1966.

Shri RAMJIDAS SAIGHAL, 15th Aug. 1966.

Shri D. K. PARAGAONKAR, 20th Sep. 1966.

Shri SHANKAR DAS, 28th Nov. 1966.

Shri SURAJ BHAN, 2nd Dec. 1966.

Shri K. R. CHHABRA, 4th Feb. 1967.

No. 591, dated 20th Feb. 1969.—The President is pleased to appoint the following officers as Offg. S.Ws. until further orders :—

Military Engineer Services

MES/150009 Shri S. V. MATTIKALLI, Offg. A.S.W., 23rd Nov. 1968. (F.N.).

MES/127042 Shri H. G. NAYAK, Permt. S. A. Grade II and Offg. A.S.W., 30th Oct. 1968. (F.N.).

MES/300018 Shri CHAUDHARY MAHESH, Offg. A.S.M., 20th Nov. 1968. (F.N.).

MES/405009 Shri R. D. MIRZA, Temp. A.E.E. (B/R), 11th Nov. 1968 (F.N.).
Nov. 1968 (F.N.).

MES/406187 Shri S. K. RAO, Temp. A.E.E. (B/R), 28th Oct. 1968. (F.N.).

MES/108140 Shri K. RAJAGOPALAN, Quasi-Permt. S.A. Grade II and Temp. A.E.E. (B/R), 11th Dec. 1968. (F.N.).

The above officers will be on probn. for two years.

No. 592, dated 20th Feb. 1969.—The President is pleased to appoint the following as A.Os. Grade II until further orders :—

Military Engineer Services

MES/15905 Shri CHANDAR SHEKHAR PANT, Permt. Steno and Temp. Supdt. (Clerical), 7th Nov. 1968. (F.N.).

MES/16384 Shri SANT KUMAR GUPTA, Permt. U.D.C. and Temp. Supdt. (Clerical), 11th Dec. 1968 (F.N.).

MES/18842 Shri BHOLA NATH BARAT, Permt. U.D.C. and Temp. Supdt. (Clerical), 11th Dec. 1968. (F.N.).

MES/30650 Shri RAMAKRISHNA GANESH JOGLEKAR, Permt. U.D.C. and Temp. Supdt. (Clerical), 9th Dec. 1968. (F.N.).

The officers will be on probn. for two years.

No. 593, dated 19th Feb. 1969.—Having been selected for transfer to min. of Works, Housing and Urban Development on deputation for appointment as Superintending Engineer (Arbitration), Shri V. K. Gupta, permt. S.E., relinquished the charge of duties of Superintending Engineer in the Military Engineer Services w.e.f. 15th Sep. 1966 F.N. On expiry of the deputation period he assumed charge of the duties of Superintending Engineer in the Military Engineer Services w.e.f. 12th Feb. 1968 F.N.

N. V. SWAMINATHAN, Under Secy.

No. 594, dated 7th Feb. 1969.—The President is pleased to grant extension of service to the undermentioned officer who was re-employed under AI 6/S/57 w.e.f., 4th Nov. 1965 vide M. of D. Notn. No. 1430, dated 25th May 1966 published in the Gazette of India dated 4th Jun. 1966 for the period mentioned against his name :—

Lt. Col. Pattada Subbiah CHITTIAPPA (IC 2731), 'Arty. 4th Nov. 1967 to 3rd Nov. 1969.

No. 595, dated 3rd Feb. 1969.—The President is pleased to grant extension of service to the undermentioned officer who was re-employed under AI 6/S/57 w.e.f., 17th Jan. 1966 vide M. of D. Notn. No. 2643 dated 18th Sep. 1967 published in the Gazette of India dated 30th Sep. 1967 for the period mentioned against his name :—

Lt. Col. Arunmana SASIDHARAN TAMPI (IC 5476), A.S.C., 17th Jan. 1968 to 1st Jan. 1969.

No. 596, dated 3rd Feb. 1969.—The President is pleased to grant extension of service to the undermentioned officer who was re-employed under AI 6/S/57 w.e.f., 25th Apr. 1966

vide M. of D. Notn. No. 1495 dated 3rd June 1968 published in the Gazette of India dated 22nd June 1968 for the period mentioned against his name :—

Capt. NARANKAR SINGH DHILLON (IC 3811), A.S.C., 25th Apr. 1968 to 16th Dec. 1968.

No. 597, dated 4th Feb. 1969.—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY

The undermentioned regular retired officer has been re-employed in the rank of Lt. Col. for a period of 2 years w.e.f. 8th Mar. 1966 under AI 6/S/57 and M. of D. letters No. 7802/NCC/PLG/2211/US/D(GS III) dated 22nd Jun. 1963, with seniority as indicated against his name :—

DINA NATH (IC 10725), Inf., 13th Aug. 1940.

The undermentioned regular retired officer has been re-employed in the rank of Lt. Col. for a period of 3 years w.e.f. 23rd June 1966 under AI 6/S/57 and M. of D. letters No. 7802/NCC/PLG/2211/US/D(GS III) dated 22nd Jun. 1963, with seniority as indicated against his name :—

Kanwar BHUPINDAR SINGH (IC 2461) Inf., 14th Mar. 1943.

The undermentioned regular retired officer has been re-employed in the rank of Lt. Col. for a period of 3 years w.e.f. 17th Aug. 1966 under AI 6/S/57 and M. of D. letters No. 7802/NCC/PLG/2211/US/D(GS III), dated 22nd Jun. 1963 and No. 7802/NCC/PLG/1462/C/D(GS IV), dated 10th June 1966 with seniority as indicated against his name :—

Sorab Pestonji KUTKY (IC 2060) Inf., 21st Apr. 1943.

The undermentioned regular retired officer has been re-employed in the rank of Lt. Col. for a period of 3 years w.e.f. 30th Sep. 1966 under AI 6/S/57 and M. of D. letters No. 7802/NCC/PLG/2211/US/D(GS III) dated 22nd Jun. 1963 and No. 7802/NCC/PLG/1462/C/D(GS IV) dated 10th June 1966 with seniority as indicated against his name :—

DEBAPRASAD LAHIRI (IC 3747), Inf., 11th May 1944.

The undermentioned regular retired officer has been re-employed in the rank of Lt. Col. for a period of 3 years w.e.f. 16th Nov. 1966 under AI 6/S/57 and M. of D. letters No. 7802/NCC/PLG/2211/US/D(GS III) dated 22nd Jun. 1963 and No. 7802/NCC/PLG/1462/C/D(GS IV) dated 10th June 1966 with seniority as indicated against his name :—

Singanallur Venkateshiyar NAGARAJAN (IC 2560), Inf., 7th Oct. 1941.

The undermentioned regular retired officer has been re-employed in the rank of Lt. Col. for a period of 3 years w.e.f. 24th Dec. 1966 under AI 6/S/57 and M. of D. letters No. 7802/NCC/PLG/2211/US/D(GS III) dated 22nd Jun. 1963 and No. 7802/NCC/PLG/1462/C/D(GS IV) dated 10th June 1966 with seniority as indicated against his name :—

PARBAT SINGH (IC 9432), Inf., 24th Dec. 1939.

The undermentioned regular retired officer has been re-employed in the rank of Lt. Col. for a period of 3 years w.e.f. 4th Jan. 1967 under AI 6/S/57 and M. of D. letters No. 7802/NCC/PLG/2211/US/D(GS III) dated 22nd Jun. 1963 and No. 7802/NCC/PLG/1462/C/D(GS IV) dated 10th June 1966 with seniority as indicated against his name :—

Kanwar DURJANSAL (IC 5542), Inf., 4th June 1941.

The undermentioned regular retired officer has been re-employed in the rank of Lt. Col. w.e.f. 1st Feb. 1967 to 14th Oct. 1969 under AI 6/S/57 and M. of D. letters No. 7802/NCC/PLG/2211/US/D(GS III) dated 22nd Jun. 1963 and No. 7802/NCC/PLG/1462/C/D(GS IV) dated 10th June 1966 with seniority as indicated against his name :—

Amrit Singh BAKSHI (IC 1240), A.S.C., 1st Sep. 1941.

The undermentioned regular retired officer has been re-employed in the rank of Major for a period of 3 years w.e.f. 8th Apr. 1965 under AI 6/S/57 with seniority as indicated against his name :—

SANSAR SINGH (IC 10739), Inf., 28th June 1944,

The undermentioned regular retired officer has been re-employed in the rank of Major for a period of 2 years w.e.f. 10th Nov. 1965 under AI 6/S/57 with seniority as indicated against his name :—

DARBARA SINGH (IC 2090), Inf., 26th June 1943.

The undermentioned regular retired officer has been re-employed in the rank of Major for a period of 2 years w.e.f. 16th May 1966 under AI 6/S/57 with seniority as indicated against his name :—

PARDUMAN SINGH (IC 2236), Armd. Corps, 3rd Jan. 1948, but for purpose of pay only from 3rd Jan. 1946.

The undermentioned regular retired officer has been re-employed in the rank of Major for a period of 2 years w.e.f. 19th May 1966 under AI 6/S/57 with seniority as indicated against his name :—

RAI BIR SINGH (IC 7741), Armd. Corps, 8th Oct. 1943.

The undermentioned regular retired officer has been re-employed in the rank of Major for a period of 3 years w.e.f. 4th July 1966 under AI 6/S/57 with seniority as indicated against his name :—

Sardara Singh BAINS (IC 9460), Inf., 18th July 1943.

The undermentioned regular retired officer has been re-employed in the rank of Major for a period of 3 years w.e.f. 5th July 1966 under AI 6/S/57 with seniority as indicated against his name :—

TEJ PAL SINGH (IC 5265), Armd. Corps, 29th Jan. 1943.

The undermentioned regular retired officer has been re-employed in the rank of Major w.e.f. 11th Aug. 1966 to 10th June 1969 under AI 6/S/57 with seniority as indicated against his name :—

Shanker Rao KALLE (IC 9384), A.S.C., 26th Sep. 1943.

The undermentioned regular retired officer has been re-employed in the rank of Major w.e.f. 21st Aug. 1966 to 23rd May 1969 under AI 6/S/57 with seniority as indicated against his name :—

Dattatrya Vishnu PANDIT (IC 9848), A.S.C., 23rd Oct. 1943.

The undermentioned regular retired officer has been re-employed in the rank of Major for a period of 3 years w.e.f. 29th Aug. 1966 under AI 6/S/57 with seniority as indicated against his name :—

BHAN PAL SINGH (IC 9042), Inf., 2nd Jan. 1949 but for purposes of pay only w.e.f. 2nd Jan. 1947.

The undermentioned regular retired officer has been re-employed in the rank of Major for a period of 3 years w.e.f. 30th Aug. 1966 under AI 6/S/57 with seniority as indicated against his name :—

BHISHAM OHRI (IC 1290) Armd. Corps, 16th Dec. 1943.

The undermentioned regular retired officer has been re-employed in the rank of Major for a period of 3 years w.e.f. 19th Sep. 1966 under AI 6/S/57 with seniority as indicated against his name :—

Jai Narain Singh YADAVA (IC 9012) Inf., 6th Aug. 1948 but for purposes of pay only w.e.f. 6th Aug. 1946.

The undermentioned regular retired officer has been re-employed in the rank of Major for a period of 3 years w.e.f. 4th Oct. 1966 under AI 6/S/57 with seniority as indicated against his name :—

BARINDER SINGH (IC 2805) Inf., 18th Apr. 1943.

The undermentioned regular retired officer has been re-employed in the rank of Major for a period of 3 years w.e.f. 14th Dec. 1966 under AI 6/S/57 with seniority as indicated against his name :—

BALWANT SINGH RIKHY (IC 8908) A.O.C., 26th Sep. 1943.

The undermentioned regular retired officer has been re-employed in the rank of Major w.e.f. 27th Dec. 1966 to 12th Dec. 1969 under AI 6/S/57 with seniority as indicated against his name :—

JAIDEV (IC 8709) A.O.C., 24th Feb. 1947.

The undermentioned regular retired officer has been re-employed in the rank of Major for a period of 3 years w.e.f. 31st Dec. 1966 under AI 6/S/57 with seniority as indicated against his name :—

Shankar Vishwanath DRAVID (IC 8769) Artillery, 1st May 1944.

The undermentioned regular retired officer has been re-employed in the rank of Major w.e.f. 9th Jan. 1967 to 31st Dec. 1969 under AI 6/S/57 with seniority as indicated against his name :—

Gulub Singh SHARMA (IC 4393) A.O.C., 11th Aug. 1947.

The undermentioned regular retired officer has been re-employed in the rank of Major for a period of 3 years w.e.f. 16th Jan. 1967 under AI 6/S/57 with seniority as indicated against his name :—

IODH SINGH (IC 2491) Artillery, 18th Oct. 1945 but for purpose of pay only 18th Oct. 1943.

The undermentioned regular retired officer has been re-employed in the rank of Major w.e.f. 17th Jan. 1967 to 14th Jan. 1970 under AI 6/S/57 with seniority as indicated against his name :—

Milton Dominic GONSALVES (IC 2517) A.S.C., 13th Oct. 1942.

The undermentioned regular retired officer has been re-employed in the rank of Major for a period of 3 years w.e.f. 23rd Jan. 1967 under AI 6/S/57 with seniority as indicated against his name :—

RANJODH SINGH (IC 9506) Inf., 1st July 1947.

The undermentioned regular retired officer has been re-employed in the rank of Major w.e.f. 2nd Feb. 1967 to 4th Jan. 1970 under AI 6/S/57 with seniority as indicated against his name :—

SURAJ MAL (IC 11292) A.S.C., 13th Apr. 1951.

The undermentioned regular retired officer has been re-employed in the rank of Major for a period of 3 years w.e.f. 12th Apr. 1967 under AI 6/S/57 with seniority as indicated against his name :—

Sivarama SANKARAN (IC 8357) Signals, 3rd Sep. 1946.

The undermentioned regular retired officer has been re-employed in the rank of Major for a period of 3 years w.e.f. 12th Oct. 1967 under AI 6/S/57 with seniority as indicated against his name :—

BHAGWAN SINGH GUSAIN (IC 8781) Artillery, 2nd Apr. 1949 but for purpose of pay only 2nd Apr. 1947.

The undermentioned regular retired officer has been re-employed in the rank of Captain for a period of 3 years w.e.f. 19th Jul. 1966 under AI 6/S/57 with seniority as indicated against his name :—

HAZARA SINGH (IC 8396), Signals, 16th Nov. 1944.

The undermentioned regular retired officer has been re-employed in the rank of Captain for a period of 3 years w.e.f. 24th Sep. 1966 under AI 6/S/57 with seniority as indicated against his name :—

MUTHUKRISHNA NAIDU (IC 2172) Engineers, 17th Dec. 1947 but for purpose of pay only 17th Dec. 1945.

The undermentioned regular retired officer has been re-employed in the rank of Captain w.e.f. 16th Nov. 1966 to 13th Nov. 1969 under AI 6/S/57 with seniority as indicated against his name :—

KESAR SINGH (IC 3022) A.O.C., 15th Jan. 1943.

The undermentioned regular retired officer has been re-employed in the rank of Captain w.e.f. 6th Jan. 1967 to 4th Jan. 1970 under AI 6/S/57 with seniority as indicated against his name :—

Raghunath Krishna DESAI (IC 10900) A.O.C., 2nd Aug. 1951.

The undermentioned regular retired officer has been re-employed in the rank of Captain for a period of 3 years w.e.f. 17th Oct. 1967 under AI 6/S/57 with seniority as indicated against his name :—

KISHORE CHAND KAPOOR (IC 4717) Artillery, 2nd Aug. 1944.

F. M. VIRJEE, Under Secy.

No. 598, dated 18th Feb 1969.—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

*Permanent Commission**To be Subs. Lt.-Gen.*

Maj.-Gen. K. N. Dubey (IC 6030), P.V.S.M., 16th Nov. 1968, with seniority from 19th May 1968 without effect on pay pension and tenure.

No. 599, dated 18th Feb. 1969.—The President is pleased to make the following promotion and to grant the General officer a tenure of two years in the substantive rank of Lt.-Gen. :—

REGULAR ARMY

*Permanent Commission**To be Subs. Lt.-Gen.*

Maj.-Gen. R. N. Batra (IC 446) P.V.S.M., 1st Dec. 1968, with seniority from 20th May 1968 without effect on pay, pension and tenure

N. D. BUCH, Jt. Secy.

No. 600, dated 19th Feb. 1969.—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

*Permanent Commission**Lt. Col. to be Col.*

F. M. SEETHAPATHY (MR-291), AMC, 29th July 1967.

K. RAJAGOPALAN, Dy. Secy.

No. 601, dated 21st Feb 1969.—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

*Permanent Commission**Majors to be Subs. Lt. Col. (by selection)*

H. S. CHHACHHI (IC 8350) Artillery, D. SWAROOP (IC 4241) E.M.E., and M. S. OBFROI (IC 4450) A.O.C., 2nd May 1966

D. R. IYER, Under Secy.

No. 602, dated 18th Feb. 1969.—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

*Permanent Commission**Maj to be subs. Lt. Col. (by selection)*

M. Sheraili (IC 3887), A.O.C., 31st July 1967 (but with seniority from 18th Sep. 1965 without effect on pay and pension)

I. M. VIRIEF, Under Secy

No. 603, dated 21st Feb. 1969.—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

*Permanent Commission**Major to be subs. Lt. Col. (By Time Scale)*

V. I. PHATAK (IC 9360) Artillery, 13th June 1967.

D. R. IYER, Under Secy,

No. 604, dated 18th Feb. 1969.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

*Permanent Commission**Cpts. to be Majs.*

P. K. Kaul (IC 6176), Artillery, 28th Dec. 1968.

S. D. Kale (IC 7667) Artillery, S. Rangaswamy (IC 7601), Engineers, R. Kapoor (IC 7631) and H. C. Josh (IC 7637), Inf., N. K. Bhandari (IC 7623), Harsh Pati (IC 7659), R. Jain (IC 7682) Inf., Rajesh Bahadur (IC 7671) and H. S. Sharma (IC 7703), F.M.F., V. J. Anand (IC 7714), Artillery, N. K. Trivedi (IC 7639), H. T. Malkani (IC 7702), K. C. Malhotra (IC 7712) and S. K. Gulati (IC 7736), Engineers, J. Sampath (IC 7678), P. K. Ghosh (IC 7707), Artillery, N. G. Patwardhan (IC 7694), Engineers, Shambuji Lal (IC 7708), Inf., and S. K. Gaur (IC 7620), E.M.E., N. P. S. Bal (IC 7616), H. S. Bawa (IC 7697), Armoured Corps, K. C. Taneja (IC 7612), Engineers, M. A. Zaki (IC 7613), N. K. Oberoi (IC 7625) and Kulwant Singh (IC 7665), Inf., H. S. Ahluwalia (IC 7688), S. C. N. Aras (IC 7699), Artillery, G. B. V. L. Sastry (IC 7733), Inf., J. K. Deb (IC 7651) and R. K. Kashyap (IC 7738), A.O.C., Khushinder Singh (IC 7668), Artillery, T. John (IC 7666), Rajeshwar Saran (IC 7685), K. C. Garga (IC 7717) and M. S. Varma (IC 7734), Signals, R. K. Mehta (IC 7644), K. L. Rattan (IC 7661) Sarfraz Singh (IC 7675), T. S. Ahlawat (IC 7696) and M. M. Sharma (IC 7728), Inf., G. K. Chawla (IC 7657), P. S. Nayyar (IC 7673), N. K. Kandhari (IC 7691), S. C. Saxena (IC 7710) and N. S. Bhatnagar (IC 7711), A.S.C., Baldeo Singh (IC 7643), A. S. Sandhu (IC 7672), Raghubir Singh (IC 7674), V. K. Singh (IC 7709) and A. D. Chaubal (IC 7720), Inf., Narinder Nath (IC 7683), S. K. Grover (IC 7692), V. P. Malhotra (IC 7705), B. B. Anand (IC 7715) and A. S. L. Gupta (IC 7729), Artillery, P. N. Jaywant (IC 7608), B. S. Malhotra (IC 7610), R. N. Josh (IC 7619), Surjit Singh (IC 7628) and G. R. Verma (IC 7642), Artillery, S. S. Joshi (IC 7669), Deo Chand (IC 7700), S. K. Nayar (IC 7706), S. S. Talwar (IC 7723) and N. K. Agarwal (IC 7739), A.O.C. 11th Dec. 1968.

A. P. D'monte (IC 7649), Artillery, P. P. Chawla (IC 10128), K. V. Jolly (IC 10138), S. K. Roy (IC 10169) and S. R. Sen (IC 10172), F.M.E., 15th Dec. 1968.

*Permanent Commission (Special List)**Capt. to be Maj.*

K. S. Bedi (SL 23), 1st Nov. 1968.

Jage Ram (SL 102), P. R. Sharma (SL 104), M. V. N. K. Menon (SL 105), Sardar Singh (SL 111) and D. D. Khanoria (SL 112), 1st Jan 1969.

Lts. to be Cpts.

V. B. Batra (IC 13531), M. M. A. Cariappa (IC 13532), S. K. Kariappa (IC 13548), R. Sethi (IC 13583), H. S. Aurora (IC 13589), S. C. Kuthlala (IC 13621), J. C. Bhatia (IC 13626), R. S. Kapur (IC 13627), Ravindra Kumar (IC 13635), L. Padmanabhan (IC 13640), Rajinder Singh (IC 13656), G. S. Punia (IC 13666), Harbans Lal (IC 13674), A. K. Shukla (IC 13681), N. S. Mamik (IC 13683), V. K. Chowdhury (IC 13690), H. S. Gill (IC 13700), L. M. Chadha (IC 13735), J. N. Khanna (IC 13738) and Gurdial Singh (IC 13743), Artillery, R. S. Randhawa (IC 13528), J. Baskaran (IC 13568), R. S. Sodhi (IC 13603), S. Gulati (IC 13617), Kuldip Singh (IC 13622), F. Bijly (IC 13660), V. M. Dogra (IC 13778), R. Malhotra (IC 13881), Baldev Singh (IC 13882), A. S. Bal (IC 13916), V. K. Sewal (IC 13947), D. R. Nanda (IC 13966), Harinder Bir Singh (IC 14028) and O. S. Bhullar (IC 14073), Armoured Corps, S. N. Khunghar (IC 13766), K. Viswanathan (IC 13767), D. P. S. Narpuri (IC 13771), S. S. Nayyar (IC 13780), R. S. Rao (IC 13785), V. R. Patil (IC 13788), Nand Kishore (IC 13790), K. C. Satapathy (IC 13809), G. C. Bhattacharya (IC 13811), H. S. Dhinsa (IC 13816), N. T. Madhusudan (IC 13819), F. G. Desa (IC 13828), J. C. Behera (IC 13902), S. M. Chand (IC 13908), B. G. Duagel (IC 13920), G. M. Iaredo (IC 13921), R. S. Datta (IC 13925), H. S. Chhokar (IC 13958), Balkar Singh (IC 13965) and S. L. Kripalani (IC 13973), Artillery, 11th Dec. 1968.

L. R. Shankhyan (IC 17429), P. Bharti (IC 17437), R. U. Misra (IC 17494), S. Vasudeva (IC 17497) and R. G. Thomas (IC 17520), Artillery, Chandgi Ram (IC 17202), Ujagar Singh (IC 17208), M. S. Manhas (IC 17222), Rattan Deep Singh (IC 17226), N. K. Sharma (IC 17244), Neetlem Prabhakar (IC 17258), M. D. Sunder (IC 17277), G. B. Tripathi (IC 17285), and D. B. K. Rao (IC 17286), Signals, S. S. Kanbargimath (IC 17197), A. S. Takhar (IC 17198), Maha Singh (IC 17205), L. M. Tewari (IC 17218), Ratan Jit Singh (IC 17220), Nirmal Tej Singh (IC 17224), D. K. Banerjee (IC 17225), F. B. Khattri (IC 17227) and H. V. Verma (IC 17228), Inf., V. K. Bhuchar (IC 17230), A. Tiwari (IC 17234), G. S. Uppal (IC 17237), R. Khare (IC 17240), Digvijay Pal Singh (IC 17242), K. C. Katoch (IC 17247), B. S. Dhillon (IC 17248), R. S. Sethi (IC 17253) and A. K. Sood (IC 17261), Inf., K. K. Kaushal (IC 17221), A. K. Sehgal (IC 17223), M. Swaminathan (IC 17263), V. K. Handa (IC 17318), G. M. Nayar (IC 17323), P. K. Kapur (IC 17337), Rakesh Puri (IC 17347), Surender Singh (IC 17357) and A. K. Nigpal (IC 17377), Engineers, S. Kaushik (IC 17200), Krishan Partap Singh (IC 17207), A. K. Kak (IC 17211), Kanjan Das (IC 17238), C. S. Harika (IC 17254), Lalit Badhwar (IC 17336), Baljeet Singh (IC 17354), Venkatraman Shankar (IC 17403), K. G. Vaze (IC 17412) and K. B. Kapoor (IC 17427), Armoured Corps, 25th Dec. 1968.

Emergency Commission

2/Lts. to be Lts.

S. C. Parmar (FC 51089) F.M.E., 30th June 1965.
M. M. Arjuna Raja (EC 51494), D. P. Chelliah (EC 51495), V. K. Bakshi (EC 51502), P. N. Dass (EC 51537), E. D. Nambiar (EC 51488), Sudesh Kumar (EC 51489), Hari Krishan (EC 51521), S. B. Salunke (EC 51513), Signals, 30th June 1965.

N. S. Dhir (EC 51567), Y. P. Sharma (EC 51787), R. S. Bajwa (FC 52358), E.M.E., 27th Sep. 1965.

Rachpal Singh (FC 52021), H. M. Chadha (EC 52769), Engineers, 27th Sep. 1965.

A. S. Krishna Rajendran (EC 55364), R. Sharma (EC 55376), Signals, S. Thiruthuva Nathan (EC 55249), V. P. Nair (EC 55266), Sreenivasan (FC 55320), C. Siva Sankaran (EC 55379), K. Sunder Raj (EC 55396), C. M. Sehgal (EC 55401), P. N. Khara (EC 55422), M. A. Aipe (EC 55425), R. M. R. Kidiyoor (EC 55491), S. S. Hiremath (EC 55610), Signals, 2nd Feb. 1966.

D. S. Chhikara (EC 51547), V. K. Bhavan (EC 51826), Dev Raj (EC 51889), N. K. Menon (EC 51957), Satwant Singh (EC 51630), Mewa Singh (EC 51750), I. S. Yadava (EC 51806), Sadhu Singh (EC 51834), V. K. Bhulkar (EC 51848), S. C. Pradhan (EC 52003), S. S. Yadav (EC 52058), SIGNALS, 27th Sep. 1965.

Gudaman Singh (EC 51603), SIGNALS, 1st Aug. 1966.

S. S. Shekhawat (EC 58223), INF, 2nd Aug. 1966.

Short Service Commission

2/Lts. to be Lts.

K. V. Balakrishnan (SS 18606), R. Parthasarathi (SS 18728), A. K. Shafi (SS 18749), R. R. Batra (SS 18755), D. K. Thite (SS 18760), Ram Gopal (SS 18768), Swinder Singh (SS 18823), R. Chandrasekhara (SS 18860), H. S. Gupta (SS 18891) and S. K. Bhalla (SS 18893), Engineers, 24th Apr. 1968.

F. M. VIRJEE, Under Secy.

No. 605, dated 21st Feb. 1969.—The President is pleased to make the following promotion:—

REGULAR ARMY

Infantry

The Dogra Regt

To be Sub.

Nb Sub, Kartar Singh JC-35494, 18th May 1967.

Nb. Sub. Ved Kumar JC-25149, 24th Sep. 1968.

Nb. Sub. Mahant Singh JC-27434, 17th Oct. 1968.

Infantry

4 GR

To be Sub. (Clerk)

Nb. Sub. Clk. Prem Singh Pathania JC-16510, 27th Nov. 1968.

Infantry

The Maratha L I

To be Sub.

Nb. Sub. Jagu Aglawe JC-16343, 21st May 1968.

Nb. Sub. Maruti Kadam JC-16344, 30th July 1968.

Nb. Sub. Shahu Dalvi JC-16345, 2nd Sep. 1968.

Infantry

The Raj. Rif.

To be Sub.

Nb. Sub. Karan Singh JC-19795, 18th Oct. 1968.

Infantry

The Sikh LI

To be Sub.

Nb. Sub. Lakha Singh JC-24853, 1st July 1967.

Nb. Sub. Charan Singh JC-25315, Nb. Sub. Karam Singh JC-28981 and Nb. Sub. Diwan Singh JC-27510, 1st Jan. 1968.

Nb. Sub. Rattan Singh JC-24054, 29th Oct. 1968

Nb. Sub. Teja Singh JC-24052, 7th Nov. 1968.

Infantry

The Punjab Regiment

To be Sub. (Clerk)

Nb. Sub. Clk. Amar Singh JC-18562, 10th Oct. 1968.

Corps of Engineers

Bombay Engineer Group

To be Sub. (Clerk)

Nb. Sub. Clk. Shankar Pawar JC-15530, 5th Dec. 1967.

Infantry

Brigade of The Guards

To be Sub.

Nb. Sub. Bant Singh JC-20731, 1st Apr. 1967.

G. D. CHOWDHRY, Under Secy.

No. 606, dated _____—The President is pleased to make the following promotion:—

REGULAR ARMY

Infantry

The Assam Regt.

To be Nb. Sub.

Hav. Rokhuma Lushai No. 4331337 now JC 51172, 11th Oct. 1968.

Infantry

The Bihar Regt.

To be Nb. Sub.

Hav. John Toppo No. 4232833 now JC-51256, 28th Sep. 1968.

Hav. Johan Barla No. 4232706 now JC-51257, 28th Sep. 1968.

Infantry

The Dogra Regt.

To be Nb. Sub.

Hav. Satya Parkash Chandel No. 3943521 Now JC 51243, 29th Aug. 1968.

BHM Parsotam Singh No. 3930775 now JC 51244, 12th Nov. 1968.

“(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 21st Oct. 1968 without effect on pay and allowances).”

To be Nb. Sub. (Clerk)

Hav. Clk. Tilak Raj Sharma (No. 3940161 now JC-51269), 13th Jan. 1969.

Infantry

The Jat Regt.

To be Nb. Sub.

Hav. Ram Kishan 3140445 now JC 51233, 19th Sep. 1968.

Hav. Sukhbir Singh 3133494 now JC 51234, 19th Sep. 1968.

To be Nb. Sub. (Clerk)

Hav. Clk. Birbal Singh 3132710 now JC-51228 and Hav. Clk. Sher Singh 3132733 now JC-51229, 17th Dec. 1968.

Hav. Clk. Hari Singh 3137542 now JC-51262, 25th Dec. 1968.

Infantry

The Kumaon Regt.

To be Nb. Sub.

CHM Khazan Singh No. 4139552 now JC-51235, 3rd Sep. 1968.

BQMH Balbir Singh No. 4141390 now JC-51236, 2nd Oct. 1968.

CQMH Siri Chand No. 9035579 now JC-51237, 12th Oct. 1968.

Hav. Makhn Lal No. 4140650 now JC 51190, 14th Oct. 1968.

Hav. Jagdev Singh No. 4131082 now JC 51191, 7th Nov. 1968.

CHM Prem Singh No. 4135838 now JC-51211, CQMH Bishen Singh No. 4131705 now JC-51212, Hav. Ram Singh No. 4137070 now JC-51213, BHM Govind Singh No. 4139981 now JC-51214, CHM Partap Chand No. 4140308 now JC-51215, CQMH Retan Singh No. 4142100 now JC-51216, and CQMH Urba Datt No. 4139166 now JC-51217, 31st Aug. 1968.

CQMH Kishan Singh No. 4141020 now JC-51218, 24th Nov. 1968.

Infantry

The Madras Regt.

To be Nb. Sub. (Clerk)

Hav. Clk. VN Muhamad Ali No. 2538501 now JC-51171, 1st Dec. 1968.

Infantry

The Rajput Regiment

To be Nb. Sub.

Hav. Jai Singh No. 2947568 now JC-51251, 11th Aug. 1968.

Hav. Rajvir Singh No. 2939347 now JC-51252, 28th Sep. 1968.

Hav. Chauharja Bux Singh No. 2944478 now JC-51253, 28th Sep. 1968.

Hav. Sugar Singh No. 2944341 now JC-51254, 28th Sep. 1968.

Hav. Bhagirath No. 2941200 now JC-51245, Hav. Rajpal Singh No. 2942722 now JC-51246 and Hav. Om Prakash No. 2942649 now JC-51247, 9th Dec. 1968.

Infantry

The Punjab Regiment

To be Nb. Sub. (Clerk)

Hav. Clk. Mela Ram No. 2436566 now JC-51219, 4th Nov. 1968*.

“(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 10th Oct. 1968 without effect on pay and allowances).”

Hav. Clk. Kabal Singh No. 2435403 now JC-51220, 19th Dec. 1968.

Special List

The Sikh Regiment

To be Nb. Sub. (Religious Teacher)

Nk. Swarn Singh No. 3345220 now JC 51164, 24th Oct. 1968.

To be Nb. Sub. (Clerk)

Hav. Clk. Karnail Singh No. 3338858 now JC 51230, 2nd Dec. 1968*.

“(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 21st Oct. 1968 without effect on pay and allowances).”

Hav. Clk. Joginder Singh No. 3331759 now JC 51231 1st Nov. 1968.

Hav. Clk. Joginder Singh No. 3339631 now JC 51232 16th Nov. 1968.

Infantry

JAK Rif.

To be Nb. Sub. (Clerk)

Hav. Clk. Ram Sharan (No. 13710380 now JC-51181, 7th Dec. 1968.

Infantry

3 GR

To be Nb. Sub.

Hav. Dal Bahadur Gurung No. 5231935 now JC 51195, 15th Oct. 1968.

Hav. Bhabi Chand Thapa No. 5231976 now JC 51196, 19th Oct. 1968.

Hav. Balisar Thapa No. 5232377 now JC 51197, 15th Nov. 1968*.

“(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 19th Oct. 1968 without effect on pay and allowances).”

Hav. Sul Bahadur Rana No. 5232674 now JC 51198, 26th Oct. 1968**.

“(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 21st Oct. 1968 without effect on pay and allowances).”

To be Nb. Sub. (Clerk)

Hav. Clk. Madan Mohan Gairola (No. 5232367 now JC 51258), 4th Jan. 1969.

Infantry

5 GR

To be Nb. Sub.

CQMH Dhanbir Gurung No. 5429111 now JC-51165, 16th June 1968.

Hav. Balsing Rana No. 5429114 now JC-51166, 1st July 1968.

Hav. Rattansingh Thapa No. 5429755 now JC-51177, 29th Sep. 1968.

Hav. Bhuwansing Rana No. 5605053 now JC-51178, 17th Oct. 1968.

Hav. Bhimbahadur Rana No. 5429855 now JC-51179, 20th Oct. 1968.

Hav. Chhabilal Thapa No. 5429407 now JC-51180 21st Oct. 1968.

To be Nb. Sub. (Clerk)

Hav. Clk. Dharamsing Khadka No. 5429782 now JC-51268, 10th Dec. 1968.

Infantry

8 GR

To be Nb. Sub.

Hav. Harkabahadur Gurung No. 5735849 now JC 51167, 4th Sep. 1968.

Hav. Lilbahadur Thapa No. 5735943 now JC 51168 17th Oct. 1968.

Hav. Ishwarsing Gurung No. 5734536 now JC-51199 13th Oct. 1968.

Hav. Kulparsad Gurung No. 5734738 now JC-51200 15th Oct. 1968.

Infantry

9 GR

To be Nb. Sub.

Hav. Em Bahadur Khattri No. 5833030 now JC 51193, 16th Oct. 1968.

Hav. Jit Bahadur Sahi No. 5830520 now JC-51194, 20th Oct. 1968.

Hav. Ran Dhoj Mall No. 5833455 now JC 51187 18th Oct. 1968.

Hav. Jhalak Sing Sing No. 5829939 now JC 51188, 26th Oct. 1968.

Hav. Sher Bahadur Mall No. 5830535 now JC 51255, 2nd Nov. 1968.

Hav. Nar Bahadur Bohra No. 5829497 now JC 51238, 23rd Nov. 1968*.

“(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 16th Oct. 1968 without effect on pay and allowances).”

Hav. Prem Bahadur Mall No. 5830544 now JC 51239 and Hav. Sher Bahadur Adhikari No. 5830130 now JC 51240, 17th Oct. 1968.

Hav. Til Bahadur Khattri No 5830184 now JC 51241, 20th Oct. 1968.

Hav. Dal Bahadur Khattri No. 5830424 now JC 51242, 4th Nov. 1968.

Hav. Kul Bahadur Sahi No. 5833296 now JC 51210, 11th Dec. 1968.

Infantry

11 GR

To be Nb. Sub.

Hav. Prasadman Rai No. 9402653 now JC-51157, 24th Aug. 1968*.

“(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 6th Aug. 1968 without effect on pay and allowances).”

Hav. Harkaman Rai No. 5433656 now JC-51158, 12th Nov. 1968%.

“(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 29th Aug. 1968 without effect on pay and allowances).”

Hav. Dilbahadur Magar No. 9402583 now JC-51173, 1st Dec. 1968.

Hav. Aschandra Rai No. 9402455 now JC-51174, 1st Dec. 1968.

Hav. Hariprasad Limbu No. 9403087 now JC-51175, 1st Dec. 1968.

Infantry

The Maratha LI

To be Nb. Sub. (Clerk)

Hav. Clk. Balak Ram Koli No. 9200911 now JC-51192, 21st Oct. 1968.

Infantry

The Sikh LI

To be Nb. Sub.

Hav. Nachhattar Singh No. 4429301 now JC-51201, 7th Aug. 1968.

Hav. Mohinder Singh No. 4436013 now JC-51202, 17th Sep. 1968.*

“(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 24th Aug. 1968 without effect on pay and allowances).”

Corps of Engineers

Bombay Engineer Group

To be Nb. Sub.

Hav. Vasant Jadhav No. 1509499 now JC-51182, 15th May 1968.*

“(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 24th Apr. 1968 without effect on pay and allowances).”

To be Nb. Sub. (Clerk)

Hav. Clk. M. G. Janardanan Pillai No. 1511128 now JC-51183, 30th Oct. 1968.@

@(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 16th July 1968 without effect on pay and allowances).

Hav. Clk. Mukhtiar Singh No. 1510076 now JC-51184, 19th July 1968.

Hav. Clk. Tarsem Singh No. 1511968 now JC-51185, 10th Aug. 1968.**

“(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 19th July 1968 without effect on pay and allowances).”

To be Nb. Sub. (Bandmaster)

Hav. Raghubir Singh No. 1505995 now JC-51186, 3rd Oct. 1968.

Special List

Corps of Engineers

Bengal Engineer Group

To be Nb. Sub. (Religious Teacher)

Spr. Santokh Singh No. 1439686 now JC-51259, 5th Apr. 1968.

L/Nk Bisheshwar Prasad No. 1422684 now JC-51260, 11th June 1968.

To be Nb. Sub.

Hav. Mahipal Singh 1409269 now JC-51203, 6th Dec. 1968*.

Hav. Moti Lal 1415499 now JC-51204, 7th Dec. 1968.*

Hav. Surat Singh 1418256 now JC-51205, 7th Dec. 1968.*

Hav. Gurdarshan Singh 1413650 now JC-51206, 13th Dec. 1968.*

Hav. Duli Chand 1416635 now JC-51207, 16th Dec. 1968 *

Hav. Shiv Datt Singh 1409067 now JC-51208, 20th Dec. 1968.*

Hav. Sarwan Singh 1413953 now JC-51209, 28th Dec. 1968.*

“(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 30th Nov. 1968 without effect on pay and allowances).”

To be Nb. Sub. (Clerk)

Hav. Clk. Mohinder Singh 1421529 now JC-51265 5th Dec. 1968.*

Hav. Clk. Maya Ram 1419873 now JC-51266, 10th Dec. 1968.*

Hav. Clk. Gishu Chandra 1421345 now JC-51267, 17th Dec. 1968.*

*(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 13th Nov. 1968 without effect on pay and allowances).

Army Educational Corps

To be Nb. Sub.

Hav. M. I. Kuran No. 6857716 now JC-51159, 23rd May 1968.

Hav. Harihar Jena No. 6861205 now JC-51160, 23rd Aug. 1968.

Hav. Dharam Pal No. 6861545 now JC-51161, 1st Sep. 1968.

Hav. Hoshiar Singh Harchand No. 6861619 now JC-51162, 1st Sep. 1968.

Hav. Raghunath Prashed Sharma No. 6630337 now JC-51163, 21st Sep. 1968.

Hav. Bali Raj Singh No. 6857544 now JC-51261, 9th July 1968.*

*(Granted seniority in the rank of Nb. Sub. w.e.f. 9th May 1968 without effect on pay and allowances).

Hav. Chaman Lal No. 6861588 now JC-51176, 1st Sep. 1968.

Hav. Budh Ram Yadava No. 6630311 now JC-51222, 1st Sep. 1968.

Hav. Baidya Nath Tiwary No. 6861682 now JC-51223, 7th Sep. 1968.

Hav. Roshan Lal No. 6630335 now JC-51224, 19th Sep. 1968.

Hav. Awadhesh Kumar Sharan No. 6861934 now JC-51225, 30th Sep. 1968.

To be Nb. Sub. (Clerk)

Hav. Clk. Yashpal Singh Parmar No. 5029888 now JC-51226, 1st Oct. 1968.

Hav. Clk. Raghbir Singh No. 3139164 now JC-51227, 1st Oct. 1968.

Hav. Clk. Kanwal Narain Sharma No. 5029968 now JC-51249, 1st Oct. 1968.

Hav. Clk. Raghunandan Pande No. 4138850 now JC-51250, 25th Oct. 1968.

(Defence Security Corps)

To be Nb. Sub. (Clerk)

Hav. Clk. M. P. Ramaiah No. 6993484 now JC-51248, 6th Dec. 1968.

Infantry

The Grenadiers

To be Nb. Sub. (Clerk)

Hav. Clk. H. K. Ahluwalia No. 13405578 now JC-51169, 1st Oct. 1968.

Hav. Clk. Rodu Ram No. 2633732 now JC-51170, 23rd Oct. 1968.

Hav. Clk. Brahm Dass No. 2634191 now JC-51263, 7th Dec. 1968.

Hav. Clk. Hoshiar Singh No. 2633556 now JC-51264, 9th Dec. 1968.

F. M. VIRJEE, Under Secy.

No. 607, dated 20th Feb. 1969—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

Army Ordnance Corps

To be Sub. Maj. Arm. Tech.

Sub. Sudarshan Singh 41017-JC, 23rd May 1968.

Sub. V. M. Mathew 42072-JC, 1st Jul. 1968.

Sub. K. Narayanan 32162-JC, 1st Jul. 1968.

Sub. S. Ram Mohan Rao 32470-JC, 18th July 1968.

To be Sub. Maj. Clk. GD

Sub. Prithvi Nath 53209-JC, 31st May 1968.

Sub. M. V. Rajagopalan 54572-JC, 4th June 1968.

Sub. Chandgi Ram Vashist 54571-JC, 1st Jul. 1968.

Sub. Brij Lal 55203-JC, 2nd Jul. 1968.

To be Sub. Maj. Clk. Store

Sub. Clk. Store (Prov.) Kishan Singh 45916-JC, 25th May 1968.

To be Sub. Maj. SK Tech.

Sub. SK Tech. (MT) J. P. Chelladurai 35659-JC, 14th May 1968.

Sub. SK Tech. (MT) G. Venkataraman 35691-JC, 17th May 1968.

Sub. SK Tech. (MT) Ila Dhar 35718-JC, 23rd May 1968.

Sub. SK Tech. (MT) Herbert Solomon Larwance Nath 32271-JC, 30th May 1968.

Sub. SK Tech. (GS&C) Manindra Chandra Chakraborty 32281-JC, 30th May 1968.

Sub. SK Tech. (GS&C) Harmandar Singh (32294-JC, 22nd June 1968.

Sub. SK Tech. (Wep.) Nanak Chand 32367-JC, 27th June 1968.

Sub. SK Tech. (MT) Janki Nath Kaw 32410-JC, 1st Jul. 1968.

Sub. SK Tech. (Wep.) Hassa Nand 32411-JC, 1st Jul. 1968.

Sub. SK Tech. (MT) Harbilas Gopal 32460-JC, 3rd Jul. 1968.

To be Sub. Maj. Driver

Sub. Dvt. (MT) Behari Lal JC-6539, 1st Jul. 1968.

To be Sub. Maj. SH GD

Sub. Mohd Abdul Wahab 40496-JC, 7th June 1968.

To be Sub. Arm. Tech.

Sub. S. Sivarama Pillai 45694-JC, 7th June 1968.

To be Sub. Arm. Tech.

Nb. Sub. Dal Singh JC-10993, 1st Jan. 1966.

To be Sub. Clk. GD

Nb. Sub. Bishan Singh Sahni JC-8673, Nb. Sub. Priya Nath Raha JC-9063, Nb. Sub. Joti Sarup Prasar JC-10257, Nb. Sub. M. Thomas Zachariah JC-8994 and Nb. Sub. Harnam Dass JC-8566, 1st Jan. 1966.

To be Sub. SK Tech.

Nb. Sub. SK Tech. (GS&C) Samittar Singh 61673-JC, Nb. Sub. SK Tech. (MT) Sitla Prasad Pande JC-13452 and Nb. Sub. SK Tech. (MT) Hotu Ram Taneja 61715-JC, 1st Jan. 1966.

To be Subedar

Nb. Sub. SH GD Bapu Jadav JC-11247 and Nb. Sub. SH Tech. Farzand Ali JC-14589, 1st Jan. 1966.

Corps of Electrical and Mechanical Engineers

To be Sub. Maj. Arm. Art. & Artz. (Eligible Categories)

Sub. Bishen Dass 51531-JC, 1st Dec. 1966.

To be Subdr Arm. Art. & Artz. (Eligible Categories)

Naib Sub. K. Varkey JC-10456, 1st Jan. 1967.

Naib Sub. Inder Parkash JC-16248, 1st Apr. 1967.

Naib Sub. Makhtool Singh JC-20547, 1st May 1967.

To be Subdr Artz. (Non-Eligible Categories)

Naib Sub. Barkat Masih JC-12765, 1st Feb. 1967.

To be Subdr Clerk (GD)

Naib Sub. Ganga Govinda MUKHERJEE JC-8538, 1st May 1967.

To be Subdr Storekeeper Tech.

Naib Sub. K. Kannan NAIR, JC-13388, 1st May 1967.
 Naib Sub. M. Achuthan NAIR, JC-13389, 1st May 1967
 Naib Sub. Sardari Lal JC-15003, 1st May 1967

To be Sub. Maj. Clerk (GD)

Sub. Raj Deo Singh 54128-JC, 1st Aug. 1967.
To be Subdr Armt. Art. & Artz. (Eligible Categories)
 Naib Sub. R. Kothanda Raman JC-14788, 1st Apr. 1967.
 Naib Sub. Atma Ram JC-20353, 1st May 1967.
 Naib Sub. Jai Chand JC-16219, 1st June 1967.
 Naib Sub. Mehtab Singh JC-11923, 1st July 1967.
 Naib Sub. Tarlok Singh JC-16220, 1st July 1967.
 Naib Sub. Narindar Singh JC-20486, 1st July 1967.
 Naib Sub. Balwant RAI JC-10030, 1st Aug. 1967.
 Naib Sub. K. V. Jity JC-20554, 1st Aug. 1967.
 Naib Sub. Chanan Singh JC-20515, 1st Aug. 1967.
 Naib Sub. Khazan Singh JC-9529, 1st Sep. 1967.
 Naib Sub. Jita Singh JC-17762, 1st Sep. 1967.
 Naib Sub. Rockwell Singh JC-20513, 1st Sep. 1967.

To be Subdr Artz (Non-Eligible Categories)

Naib Sub. Samuel Joseph JC-10465, 1st Mar. 1967.
 Naib Sub. Jiteshwar JC-11967, 1st June 1967.
 Naib Sub. Maghar Singh JC-13399, 1st July 1967
 Naib Sub. Karamjit Singh JC-11129, 1st Sep. 1967.

To be Subdr Clerks (GD)

Naib Sub. Kanhaiya Lal JC-8539, 1st June 1967.
 Naib Sub. Prahlad Singh JC-7821, 1st July 1967.
 Naib Sub. Sheo Ram JC-8009, 1st July 1967.
 Naib Sub. B. Srinivasa RAO JC-4411, 1st July 1967
 Naib Sub. Sadhu Singh JC-17773, 1st July 1967.

To be Subdr Storekeeper Technical

Naib Sub. A. Vishwanath JC-9866, 1st May 1967.
 Naib Sub. Ram Kanwar JC-13823, 1st July 1967.
 Naib Sub. Jai Singh JC-9867, 1st Aug. 1967.
 Naib Sub. K. Bhaskara PILLAI, JC-11931, 1st Sep. 1967.

To be Subdr Driving Wing

Naib Sub. Gopal JC-23735, 1st Mar. 1967.
 Naib Sub. Kalu Ram JC-20543, 1st May 1967.
 Naib Sub. Ram Sarup JC-23741, 1st June 1967.
 Naib Sub. Santhoe JC-20398, 1st July 1967.
 Naib Sub. M. Kurranna JC-20939, 1st July 1967.
 Naib Sub. Kanddasami JC-23736, 1st Sep. 1967.
 Naib Sub. N. Velayudhan NAIR, JC-23737, 1st Sep. 1967.
 Naib Sub. C. C. George JC-23738, 1st Sep. 1967.

CIM : to be Nb. Sub. Armt. Art.

Ilam Chand SHARMA No. 7029104 now JC-50887, 1st Aug. 1967.

Rajpal Singh No. 7023392 now JC-50888, 22nd Feb. 1968.*

M. Krishna VARIER, No. 7011397 now JC-50889, 1st Feb. 1968.

K. P. Sukumaran NAIR, No. 7020270 now JC-50890, 1st Feb. 1968.

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar w.e.f. 1st Feb. 1968 without effect on pay and allowances).

Hav. : to be Nb. Sub. Artizan (Eligible Categories)

Om Parkash No. 7002389 now JC-50891, 8th Dec. 1967.@

Balbir Singh CHIBBER, No. 7003483 now JC-50892, 1st Dec. 1967.

@(Granted seniority in the rank of Naib Subedar w.e.f. 1st Dec. 1967 without effect on pay and allowances).

Hav. : to be Nb. Sub. Armourer

Baldev Singh No. 7001536 now JC-50893, 1st Nov. 1967.
 Khushi Ram No. 7001781 now JC-50894, 28th Dec. 1967.&
 Jang Singh No. 7010228 now JC-50895, 1st Jan. 1968.
 Sasadhar GHOSH, No. 7010280 now JC-50896, 14th Feb. 1968.&
 Tarjit Singh SANDHU, No. 7009972 now JC-50897, 29th Jan. 1968.&

&(Granted seniority in the rank of Naib Subedar w.e.f. 1st Nov. 1967 without effect on pay and allowances).

&(Granted seniority in the rank of Naib Subedar w.e.f. 1st Jan. 1968 without effect on pay and allowances).

Hav. : to be Nb. Sub. Driving Wing

Jaswantrao Susilkumar No. 7017381 now JC-50898, 1st Nov. 1967.

Ram Kishan No. 7013475 now JC-50899, 1st Nov. 1967.**

Deo Lal Singh No. 7013678 now JC-50900, 1st Nov. 1967.

Benoy Krishna DFY, No. 7017873 now JC-50901, 1st Dec. 1967.

Kanhaiya Lal No. 7018249 now JC-50902, 1st Dec. 1967.

Nater Singh No. 7019343 now JC-50903, 11th Dec. 1967.@

Ram Shanker PANDEY, No. 7020303 now JC-50904, 25th Jan. 1968.&

** (Granted seniority in the rank of Naib Subedar w.e.f. 1st Feb. 1967 without effect on pay and allowances).

@ (Granted seniority in the rank of Naib Subedar w.e.f. 1st Dec. 1967 without effect on pay and allowances).

& (Granted seniority in the rank of Naib Subedar w.e.f. 1st Jan. 1968 without effect on pay and allowances).

Gazette of India Notification No. 1310, dated 17th May 1968, as far as it pertains to the above promotions is cancelled.

T. JACOB, Under Secy.

No. 608, dated 13th Feb. 1969.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY*Army Service Corps**(Mechanical Transport)**To be Sub.*

Nb. Sub. Pothula Krupanandam JC-39889, 11th Dec. 1968.

Nb. Sub. Raipan Soesai JC-39890, 16th Dec. 1968.

Nb. Sub. Lallo Ram JC-39891, 17th Dec. 1968.

Nb. Sub. Agasteen JC-39892, 17th Dec. 1968.

Nb. Sub. Mottamal Ramachandran Kurup JC-39893, 23rd Dec. 1968.

Nb. Sub. Bhondapati Venkata Ramana JC-39894, 30th Dec. 1968.

C. V. NARAYANAN, Under Secy.

(NAVY BRANCH)

No. 609, dated 19th Feb. 1969.—The President is pleased to make the following appointments :—

SHRI BHAGWAN SINGH, to be tempy. Principal Civil Hydrographic Officer for a period of one year or till such time Union Public Service Commission's nominee becomes available, whichever is earlier 16th Dec. 1968 (F.N.).

SHRI DATTATRAYA KISHANRAO CHITGOPKAR to be temporary Assistant Naval Store Officer until further orders. 18th Jan. 1969 (F.N.).

He will be on probation for a period of two years.

Shri MAYAVARAM SUNDARESA SUBRAMANIAN, Pt. D'man Gde. II Ty. Chief D'man to be offg. Technical Assistant (Design/Construction), 5th Dec. 1968 (A.M.).

Shri MANOHAR VENKATESA UPADHYE, Pt. D'man Gde. III Ty. D'man Gde. I to be offg. Technical Assistant (Design/Construction), 5th Dec. 1968 (A.M.).

They will be on probation for 2 years.

Shri F. D'SOUZA, Pt. UDC., Ty. Supdt. to be Offg. Civ. Gazetted Offr., vice Shri H. L. BHAVE, granted leave from 7th Oct. 1968 to 23rd Nov. 1968.

N. V. SWAMINATHAN, Under Secy.

No. 610, dated 24th Feb. 1969.—The President is pleased to make the following appointments:—

INDIAN NAVY
Temporary Cadre
Special Duties List

To be Ag. Sub.-Lt. (SD) (REG)

Sethi Prabjit SINGH MAA O. No. 61778, w.e.f. 30th Sep. 1967 vide N.I. 32/67.

AJIT SINGH, Under Secy.

No. 611, dated 19th Feb. 1969.—With reference to Gazette Notification No. 3508, dated 22nd Dec. 1967 published in the Gazette of India dated 30th Dec. 1967, DR (MRS) LEELA MARY CHACKO continued as tempy. Medical Officer (Asstt. Surgeon (Ide. I), for a further period up to 26th Sep. 1968.

N. V. SWAMINATHAN, Under Secy.

No. 612, dated 22nd Feb. 1969.—The President is pleased to make the following promotions:—

INDIAN NAVY
(Permanent Commission)
Executive Branch

Lt. Cdr. to be Cdr. (Time-scale)

R. S. Sokhi, 19th Nov. 1968, vide clause 5(a) of Regulation 151, Regs. Navy, Part III Statutory.

Lt. Cdr. (Ag. Cdr. WHA) to be Cdr. (Time-scale)

J. S. Dhindsa, 29th Nov. 1968, vide clause 5(a) of Regulation 151, Regs. Navy, Part III Statutory.

Ag. Sub-Lt. to be Sub-Lt.

N. L. Chadha, 17th Sep. 1967 with seniority of (for promotion only) 1st Jan. 1966 vide N.I. 69/61.

Executive Branch
Midshipmen to be Ag. Sub-Lts.

Amarjit Singh BAJWA, Hariharan BALAKRISHNAN, Basoor Narindra BHAT, Sangram Singh BYCE, Cedric Sushil CHARLES, Sarvotam HANDA, Arun KAPUR, Shyam KAUSHAL, Vijay MANRAL, Pushpala RAJA RAO, Biswajit ROY, Arun SAIGAL, Devindra SETHI, Anil Kumar SHARMA, Arun Kumar SINGH, Jawahar Kuldip SINGH, Vijay Kumar THAPAR, Ajit TIWARI and Gajendra VERMA, w.e.f. 1st Jan. 1969 vide N.I. 33/57.

Supply and Secretariat Branch

Ag. Sub.-Lt. to be Sub.-Lt.

N. Bakshi, 1st July, 1967 with seniority of (for promotion only) 1st July, 1966 vide N.I. 47/57.

AJIT SINGH, Under Secy.

(AIR BRANCH)

No. 613, dated 19th Feb. 1969.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to relinquish his Provisional Short Service Commission w.e.f. the date indicated against his name and to grant Short Service Commission (on probation) w.e.f. the same date.

INDIAN AIR FORCE
Tech./Sigs. Branch

C. B. Nahar (8455), 3rd Oct. 1966.

No. 614, dated 19th Feb. 1969.—The President is pleased to place the services of undermentioned officers at the disposal

of Air India vide Ministry of Defence letter No. Air HQ/21978/18/PO2/5170/D(A-III), dated 18th June, 1968.

INDIAN AIR FORCE
G.D. (Nav.) Branch

Wg. Cdr. M. G. Midhat (1982)—1st May 1968.

Wg. Cdr. P. S. Verma (3470)—1st May 1968.

No. 615, dated 19th Feb. 1969.—The President is pleased to place the services of the undermentioned officers at the disposal of Air India vide Ministry of Defence letter No. Air HQ/21978/18/PO2/10636/D(A-III), dated 14th Nov. 1968.

INDIAN AIR FORCE
G.D. (NAV) Branch

Wg. Cdr. B. Nair (3476)—5th Oct. 1968.

Sqn. Ldr. S. J. T. D'Souza (4865)—5th Oct. 1968.

Sqn. Ldr. G. S. Nath (5092)—5th Oct. 1968.

Sqn. Ldr. B. K. Jwala (5215)—5th Oct. 1968.

No. 616, dated 19th Feb. 1969.—The President is pleased to place the services of undermentioned officers at the disposal of Air India vide Ministry of Defence letter No. Air HQ/21978/18/PO2/8123/D(A-III), dated 17th Aug. 1968.

INDIAN AIR FORCE
G.D. (P) Branch

Sqn. Ldr. M. D. Yennemadi (4589)—28th Jul. 1968.

Sqn. Ldr. P. Mehta (4619)—25th Jul. 1968.

Sqn. Ldr. K. M. Balasubramaniam (4747)—25th Jul. 1968.

Sqn. Ldr. T. C. Martins, VM (4610)—25th Jul. 1968.

No. 617, dated 24th Feb. 1969.—The President is pleased to promote the undermentioned Fg. Offrs. to the subs. rank of Flt. Lts.:—

INDIAN AIR FORCE
Met. Branch

A. N. Gladcock (6161) and N. Natarajan (6183), 27th May, 1967.

Accounts Branch

V. B. Aggarwal (6647), 23rd June, 1968.

Tech. (Sigs.) Branch

S. K. Puri (7634), 27th June, 1968.

No. 618, dated 19th Feb. 1969.—The President is pleased to transfer the undermentioned Air Officer to the Regular Air Force Reserve on his retirement on completion of tenure in the Regular Air Force.

INDIAN AIR FORCE
G.D. (N) Branch

Air Vice Marshal M. S. Chaturvedi (1592), from 1st Jan. 1969 to 31st Dec. 1973.

No. 619, dated 19th Feb. 1969.—The President is pleased to transfer the undermentioned officers to the Regular Air Force Reserve on their voluntary retirement from the Regular Air Force.

INDIAN AIR FORCE
G.D. (P) Branch

Wg. Cdr. A. S. Williams, Vr. C. (3950), Sqn. Ldrs. S. S. Rajan (4201), S. G. Trivedy (4441), P. B. Menon (4592), B. R. Kapoor (4598) and R. Sharma (4728), from 3rd Oct. 1968 to 2nd Oct. 1973.

Wg. Cdr. L. A. Preston (3417), from 18th Dec. 1968 to 17th Dec. 1973.

Flt. Lt. I. P. Ahuja (5389), from 9th Oct. 1968 to 8th Oct. 1973.

No. 620, dated 19th Feb. 1969.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to resign his commission.

INDIAN AIR FORCE
G.D. (P) Branch

Sqn. Ldr. H. N. Byrne (5046), 16th Jan. 1969.

HOSHNAK SINGH, Under Secy.